

All About Computer Practice

- Q.1.** इनमें से कौन सी मैमोरी की सबसे बड़ी युनिट है ?
Which of the following is the biggest unit of memory?
✓ गीगाबाइट (Gigabytes) बाइट (bytes) मेगाबाइट (Megabytes) किलोबाइट (Kilobytes)
- Q.2.** साफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है?
The primary purpose of software is to turn data into.
वेबसाइट (Website) ✓ इन्फॉर्मेशन (Information) प्रोग्राम्स (Programs) आब्जेक्ट्स (Objects)
- Q.3.** जी. यू. आई. किसका संक्षिप्त रूप है ?
GUI Stands for
✓ ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस (Graphical User Interface)
ग्रेटर यूजर इन्टरफेस (Greater User Interface)
ग्राफिकल यूनियन इन्टरफेस (Graphical Union Interface)
ग्राफिकल यूजर इन्टरेस्ट (Graphical User Intereat)
- Q.4.** की बोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं -
Key board keys that have arrows on them are called -
फंक्शन कीज (Function Keys) ✓ नेवीगेशन कीज (Navigation Keys)
टाइपराईटर कीज (Typewriter Keys) स्पेशल पर्पस कीज (Special purpose keys)
- Q.5.** ASSCII, EBCDIC और यूनिकोड, एप्लिकेशन साफ्टवेयर के उदाहरण हैं।
ASSCII, EBCDIC and Unicode are examples of Application Software's
सही (True) ✓ गलत (False)
- Q.6.** विन्डोज, ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुँचने का सबसे आसान साधन है -
The easiest way to access any part of the screen in the windows operating system is using the.
की बोर्ड (Key Board) रैट (Rat) ✓ माउस (Mouse) जॉयस्टिक (Joystick)
- Q.7.** साफ्टवेयर को भी कहते हैं।
A software is also called as a
प्रक्रिया (Procedure) डेटा (Data) ✓ प्रोग्राम्स (Programs) इन्फॉर्मेशन (Information)
- Q.8.** बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती हैं। जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है।
Back programs make copies of the files to be used in case the original files are damaged or lost.
✓ सही (True) गलत (False)
- Q.9.** माइक्रोप्रोसेसर को प्रायः सी पी यू भी कहते हैं।
Microprocessor is often called as CPU
✓ सही (True) गलत (False)
- Q.10.** यूटिलिटी हार्डडिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है।
..... Utility identifies unnecessary files on the hard disk and erases them based on users command.
बैक अप (Backup) फाइल कम्प्रेसन (File Compression)
अनइन्स्टाल प्रोग्राम्स (Uninstall Programs) ✓ डिस्क क्लीन अप (Disk Clean up)
- Q.11.** इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है।
This type of software is designs to help you be more productive tasks, and is widely used in nearly every discilive and occupation.
कम्यूनिकेशन सॉफ्टवेयर (Communication Software)
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (Utility Software)
✓ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Basic Application Software)
सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software)
- Q.12.** मिनी कम्प्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है।
Minicomputers are also known as.
✓ मिड रेंज कम्प्यूटर्स (Mid Range Computers)
पर्सनल डिजिटल कम्प्यूटर्स (Personal Digital Computers)
मेनफ्रेम कम्प्यूटर्स (Mainframe Computers) लेपटॉप कम्प्यूटर्स (Laptop Computers)
- Q.13.** इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज़ रफ्तार के कम्प्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है।
Which of the following device is used to play fast games on a computers.
टच सरफेस (Touch Sruface) टच स्क्रीन (Touch Screen)

- टैक बॉल (Track Ball) ✓जॉयस्टिक (Joystick)
- Q.14. इनमें से किसको पोर्टेबल कम्प्यूटर नहीं माना जा सकता ?
Which of the following would not be considered as portable computer.
✓डेस्कटॉप कम्प्यूटर (Desktop Computer) नोट बुक कम्प्यूटर (Note book computer)
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (Personal Digital Assistant) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.15. हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है। Headphone is a typical output device.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.16. अनइन्स्टाल कम्प्यूटर हार्डडिस्क में इंस्टाल अवांछित प्रोग्राम्स को हटाने में मदद करता है।
Uninstall programs helps us to remove unwanted programs installed in the computer.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.17. स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है।
The capacity of a storage device is usually measured in terms of bytes.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.18. स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है।
Capacity of the storage device is usually measured in terms of meter.
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.19. एक प्वाइंटिंग डिवाइस है।
..... is a pointing device.
✓माउस (Mouse) प्रिंटर (Printer) स्कैनर (Scanner) की बोर्ड (Keyboard)
- Q.20. की बोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको कहते हैं।
The keyboards keys that are labeled F1, F2 and so on are called
✓फंक्शन कीज (Function Keys) न्यूमैरिक कीज (Numeric Keys)
टाइपराईटर कीज (Typewriter Keys) स्पेशल पर्पस कीज (Special purpose keys)
- Q.21. कैप्स लॉक जैसे किसी फिचर को शुरू या बन्द करने वाले बटन को कहते हैं -
The keyboard keys like Caps lock that turn on features on or off are called.
फंक्शन कीज (Function Keys) कांम्बिनेशन कीज (Combination Keys)
✓टॉगल कीज (Toggle Keys) स्पेशल पर्पस कीज (Special Purpose Keys)
- Q.22. वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस ओर ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को इस एक शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है।
Word processing, electronic spread sheets, database managers and graphics programs are all grouped under the title.
ब्राउजिंग प्रोग्राम्स (Browsings Programs) ओपरेटिंग सिस्टम (Operating System)
✓एप्लिकेशन साफ्टवेयर (Application Software) डेटा एंड इन्फॉर्मेशन (Data and Information)
- Q.23. की बोर्ड, माउस, मॉनीटर ओर सिस्टम यूनिट को भी कहते हैं।
Keyboard, mouse, monitor, and system unit collectively also known as
सॉलिड वेयर (Solidware) सॉफ्टवेयर (Software) ✓हार्ड वेयर (Hardware) फर्म वेयर (Firm ware)
- Q.24. मॉनीटर पर नज़र आने वाले आऊटपुट को साफ्टकॉपी कहते हैं।
Output of an image on the monitor screen is often called soft copy.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.25. बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 से 1 को एक बिट कहा जाता है।
Each 0 and 1 in the binary numbring system is called a bit.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.26. रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मैमोरी का इस्तेमाल होता है।
Cache memory is used to store most frequently accessed information from the RAM.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.27. सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है।
The system board is also known as the main board or mother board.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.28. ASSCII, EBCDIC ओर यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम हैं।
ASSCII, EBCDIC and Unicode are binary coding schemes.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.29. की बोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं, उनको कहते हैं।
The keys labeled 0-9 on the keyboard are called.
फंक्शन कीज (Function Keys) ✓न्यूमैरिक कीज (Numeric Keys)

- Q.45. सी.डी.आर. का मतलब सी.डी रीजनल है -
A CD-R stands for CD-Regional.
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.46. मॉनीटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना है।
Primary function of a monitor is to display information to the user.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.47. रैन्डम एक्सेस मेमोरी (रैम) प्रकार की मेमोरी होती है।
Random Access Memory (RAM) is type of memory.
स्थायी (Permanent) ✓अस्थायी (Temporary) फ्लैश (Flash) स्मार्ट (Smart)
- Q.48. The external memory of the computer is present on the motherboard in the form of slots.
✓ (False) (True)
- Q.49. The internal memory of the computer is present on the motherboard in the form of chips
✓ (True) (False)
- Q.50. cache memory is used to store most frequently accessed information from the ram.
✓ (True) (False)

Windows Vista

- Q.1. The "System Date" and "System Time" are the date and time as maintained by the computer's internal clock.
सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम वह तारीख व समय है। जो कम्प्यूटर की आंतरिक घड़ी द्वारा संचालित होते हैं।
✓True/ सही False/ गलत
- Q.2. Disk cleanup is used to rearrange your files so that they are not broken up.
डिस्क क्लीन अप का उपयोग फाइलों को पुनर्क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। जिससे वे अलग-अलग न रहे।
True/ सही ✓False / गलत
- Q.3. In Window Vista a folder system is also called a "Directory System."
विंडोज विस्टा में फोल्डर सिस्टम को डायरेक्ट्री सिस्टम भी कहते हैं।
✓True/ सही False/ गलत
- Q.4. "rtf" stands for "rich text format"
rft का पूरा अर्थ 'रिच टेक्सट फॉरमेट' है।
✓True / सही False / गलत
- Q.5. You can click on to learn how to use Windows Vista, obtain troubleshooting information, receive support and more.
विंडोज विस्टा के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए पर क्लिक करते हैं।
"Search"/ सर्च "Windows"/ विंडोज
"Start"/ स्टार्ट ✓"Help & Support"/ हेल्प एंड सपोर्ट
- Q.6. In MS paint to draw a curved line, we have to click the icon.
एम एस पेंट एप्लीकेशन में वक्रिय रेखा को ड्रा करने के लिए, हम आइकन पर क्लिक करते हैं।
✓"Curve"/ कर्व "Line"/ लाइन "Polygon"/ पॉलिगन "Rectangle"/ रैक्टैंगल
- Q.7. refers to the height and width of the characters to be printed.
..... प्रिंट किये जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है।
✓"Font Size"/ फॉन्ट साईज "Border"/ बार्डर
"Cell"/ सैल "Font Style"/ फॉन्ट स्टाइल
- Q.8. There are the buttons which are present on the "Title bar". EXCEPT
ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं, सिवाय
✓Minimize/ मिनि माईज Start/ स्टार्ट
✓Maximise/ मैक्सिमाइज ✓Close/ क्लोज
- Q.9. Disk Defrangementter is used to to remove unnecessary files on your hard disk to free up space and your computer run faster.
डिस्क डिफ्रैंगमेंटर का उपयोग अपने हार्ड डिस्क से अनुपयोगी फाइल को हटाने, डिस्क स्पेस को खाली करने व कम्प्यूटर को तेज गति से कार्य करने में मदद करता है।

- True / सही ✓False/ गलत
- Q.10. To change the size of your picture, Select "Image → Attributes" from the menu.**
 अपनी तस्वीर के आकार बदलने के लिए मेन्यू से "इमेज" → एड्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं।
 ✓True/ सही False / गलत
- Q.11. To start the calculator application click "Start" and select "All Programs → Accessories → Calculator."**
 कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करके आल प्रोग्राम → एक्सेसिरीज → कैलकुलेटर सेलेक्ट करते हैं।
 ✓True/ सही False/ गलत
- Q.12. can be used to create and format large and complex text documents.**
 का उपयोग बड़े व जटिल टैक्सट डाक्यूमेंट को तैयार करने और फॉरमेट करने के लिए किया जा सकता है।
 "Calculator/ कैलकुलेटर ✓"WordPad"/ वर्डपैड
 "NotePad"/ नोटपैड "TextPad"/ टैक्सट पैड
- Q.13. Notepad is a basic text editor that can be used to create simple documents.**
 नोटपेड एक मूल टैक्सट एडिटर है जिसके उपयोग से आप साधारण डाक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं।
 ✓True/ सही False/ गलत
- Q.14. A folder system is also called a "....."**
 फोल्डर सिस्टम को भी कहते हैं।
 "Direction System"/ डायरेक्शन सिस्टम ✓"Directory System"/ डायरेक्ट्री सिस्टम
 "Directroy list"/ डायरेक्ट्री लिस्ट "Folder book"/ फोल्डर बुक
- Q.15. A folder within a folder is known as a "Folder list."**
 फोल्डर के अंदर फोल्डर "फोल्डर लिस्ट" के नाम से जाना जाता है।
 True/ सही ✓False/ गलत
- Q.16. What is the name of the new "glass-like" effect on Windows Vista that displays semi-transparent effects on dialog boxes.**
 विंडोज विस्टा में नए ग्लास-लाइक इफेक्ट का नाम क्या है जो डायलॉग बाक्स पर सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है।
 ✓AERO/ ए ई आर ओ OREA/ ओ आर ए ई
 Transparancy/ ट्रांसपेरेसी None of these/ इनमें से कोई नहीं
- Q.17. A is like a container in which you can store files.**
 एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं।
 "Icon"/ आइकन "document"/ डाक्यूमेंट ✓"folder"/ फोल्डर "Sheet"/ शीट
- Q.18. The operating system's job is** एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।
to exeute many useful commands easily. कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना
to make request for service through a defined application programme interface.
 एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के वर्णन द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना
 ✓to control the computer at the most fundamental level./ कम्प्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना
 None of these./ इनमें से कोई नहीं
- Q.19. The windows interface is based on/** विंडोज इंटरफेस पर आधारित है।
 ✓"Graphical user Interface" or GUI/ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI
 Application Programme Interface or (API)/ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API)
 "Clipboard"/ क्लिपबोर्ड None of these/ इनमें से कोई नहीं
- Q.20. The name of a file consists of two parts, the File Name and the subfile name.**
 किसी फाइल नाम के दो भाग होते हैं फाइल नाम और सबफाइल नाम
 True/ सही ✓False/ गलत
- Q.21. To access the location of the particular file quickly, you create a shortcut icon for the file and palce it on the desktop.**
 किसी फाइल पर तुरन्त पहुंचने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शार्टकट आइकन तैयार करते हैं।
 ✓True/ सही False/ गलत
- Q.22. In Windows Vista windows sidebar contains mini-programs called gadgets.**

विंडोज साइडबार में मिनी प्रोग्राम होते हैं जिनको गैजेट्स कहते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.23. A file created using Notepad is stored with the extension

नोटपेड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है।

✓".txt" ".docx" ".png" ".jpg"

Q.24. In windows vista two types of "searchers" are supported: Regular search Instant search.

विंडोज विस्टा में सर्च दो प्रकार के होते हैं - रेगुलर सर्च, इंस्टेंट सर्च

✓True/ सही

False/ गलत

Q.25. When your computer is booted and is ready to use, the screen you see is called the

बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है, तो जिस स्क्रीन को आप देखते हैं वह कहलाती है।

"Table top"/ टेबलटॉप

✓"Desktop"/ डेस्कटॉप

"Laptop"/ लैपटॉप

None of these/ इनमें से कोई नहीं

Q.26. "Computer" is an application which performs functions same as that of a handheld calculator.

कंप्यूटर ऐसी एप्लीकेशन है जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर के समान कार्य करता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.27. is designed to prevent and remove spy ware.

स्पाइवेयर हटाने और उससे रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

User Account Control/ यूजर अकाउंट कंट्रोल

Windows Firewall/ विंडोज फायरवाल

✓Windows Defender/ विंडोज डिफेंडर

Parental Controls/ पैरेंटल कंट्रोल

Q.28. The clipboard is not available in Windows Vista Programs.

विंडोज विस्टा में क्लिपबोर्ड मौजूद नहीं होते हैं।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.29. What is "Windows Aero" ?/ "विंडोज ऐरो" क्या है ?

It is the graphical user interface for Windows XP.

विंडोज एक्स.पी. के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है।

✓It is the graphical user interface for Windows Vista.

विंडोज विस्टा के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है।

Application Program/ एप्लीकेशन प्रोग्राम है।

None of these/ इनमें से कोई नहीं

Q.30. Which is the basic program of a computer?/ कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौनसा प्रोग्राम है?

✓Operating System/ ऑपरेटिंग सिस्टम

Software Program/ साफ्टवेयर प्रोग्राम

Application Program/ एप्लीकेशन प्रोग्राम

None of these/ इनमें से कोई नहीं

Q.31. As you type, the text Automatically moves to the next line it reaches the right end of the margin. This feature is called "Word Wrap."

टाइप करते समय, जब मार्जिन के दाहिने छोर पर पहुंच जाते हैं तो टेक्स्ट स्वतः ही अगली लाइन में टाइप होने लगता है। इस फिचर को वर्ड रैप कहते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.32. "Log Off" is a power-saving state./पावर सेविंग अवस्था है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.33. In windows vista, you can see multiple programs running simultaneously on different areas of your screen.

✓True

False

Q.34. The menu is used to enhance the appearance of the contained presented in a document.

"Insert"

"Edit"

✓"Format"

"File"

Q.35. The "text" tool is used to add text to a paint object.

पेंट में टेक्स्ट टूल का उपयोग टेक्स्ट जोड़ने के लिए किया जाता है।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.36. "....." helps in guarding your computer against malicious software.

..... आपका कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित साफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है।

- ✓"Windows Firewall"/ विंडोज फायरवाल
"Spy ware"/ स्पाइवेयर
- "Windows Defender"/ विंडोज डिफेंडर
None of these./ इनमें से कोई नहीं
- Q.37. is a basic text editing programme and it is most comonly used to view or edit text files.**
..... एक बेसिक टेक्सट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्सट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है।
- "Calculator"/'कैलकुलेटर'
"Address book"/'एड्रेस बुक'
- ✓"Notepad"/'नोटपैड'
"Paint"/'पेंट'
- Q.38. In a windows operating system screen saver is / विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर helps in gurdng your computer against many types of malicious software.**
विभिन्न प्रकार के अवांछित साफ्टवेयर से कम्प्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है।
- is a long, vertical bar that is displayed on the side of your desktop.**
एक लम्बा वर्टिकल बार होता है तो डेस्कटॉप की एक ओर प्रदर्शित होता है।
- ✓is a programme that displays on image, animation, or just a blank screen on a computer after on input has been received for a certain length of time.
एक प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है
- None of these./ इनमें से कोई नहीं
- Q.39. Features in Windows Vista make it easier, safer and more entertaining to use your PC virtually anytime and anywhere.**
विंडोज विस्टा के फिचर यूजर को पीसी को वर्चुअल रूप से कभी भी उपयोग करने के लिए आसान, सुरक्षित मनोरंजक बनाती है।
- ✓True/ सही
False/ गलत
- Q.40. The programmes on the in Windows Vista remain there and are always available for you to click to start them.**
विंडोज विस्टा में के प्रोग्राम उसी में रहते हैं ओर स्टार्ट क्लिक करने पर हमेशा काम के लिए तैयार रहते है।
- the "Most frequently use programmes list."/ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली यूजस्ड प्रोग्राम लिस्ट
✓"pinned items list"/ पिन्ड आइटम लिस्ट
"Documents"/ डाक्यूमेंट्स
"Control Panel"/ कंट्रोल पैनल
- Q.41. In Windows Vista is a power-saving state.**
विंडोज विस्टा में पावर सेविंग अवस्था है।
- Log off/ लॉग-ऑफ
✓Sleep/ स्लीप
Restart/ रिस्टार्ट
Lock/ लॉक
- Q.42. AERO is an abbervation of / AERO किसका सक्षिप्त रूप है।**
✓Authentic, Energetic, Reflective and Open./ ऑथेनटिक एनर्जेटिक रिफ्लेक्टिव ओर ओपन
Airthmetic, Essential, Reflective and Open./ अरिथमेटिक एसेंशियल रिफ्लेक्टिव ओर ओपन
Airthmetic, Essential, Reflective and Object./ अरिथमेटिक एसेंशियल रिफ्लेक्टिव ओर ऑब्जेक्टिव
Authentic, Essential, Reflective and Open./ ऑथेनटिक एसेंशियल रिफ्लेक्टिव ओर ओपन
- Q.43. At the bottom of the screen, you can see a long, thin bar which is called as**
स्क्रीन के नीचे एक लम्बा और पतला बार देखते है जिसे कहा जाता है।
- ✓"Task bar" / टास्कबार
"Menu bar"/ मेन्यूबार
"Title bar"/ टायटल बार
"Spacebar"/ स्पेसबार
- Q.44. In Windows Vista a "Clipboard" is / विंडोज विस्टा में क्लिप बोर्ड है।**
an application program./ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम
✓a temporary storage area for information that you have copied or moved from one place and plan to use somewhere else.
सूचनाओं के लिए तात्कालिक स्टोरेज क्षेत्र जिसे आप एक स्थान से कॉपी या मूव कर सकते हैं और किसी अन्य जगह उपयोग कर सकते है।
- an operating system. / एक ऑपरेटिंग सिस्टम
None of these./ इनमें से कोई नहीं
- Q.45. is a basic text editing programme and it is most comonly used to view or edit text files.**
..... एक बेसिक टेक्सट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्सट फाइल को देखने व एडिट करने के लिए होता है।
- "Calculator"/ कैलकुलेटर
✓"Notepad" / नोटपेड

- "Address book"/ एड्रेस बुक "Paint" / पेंट
- Q.46., is a drawing programme that can be used to create modify graphic images.
..... एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मोडिफाई करने के लिए किया जा सकता है।
"Brush"/ ब्रश ✓"Paint"/ पेंट "Notepad"/ नोटपैड "Wordpad"/ वर्डपैड
- Q.47. The menu is used to enhance the appearance of the content presented in a document.
"Insert" "Edit" ✓"Format" "File"
- Q.48. A is a rectangular section on the screen that is used to display information and other programme.
स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किये जाते हैं।
Icon / आइकन Desktop / डेस्कटॉप ✓Window / विंडो Panel / पैनल
- Q.49. The capability of an operating system to run multiple programmes at the same time is called "Multitasking."
डायरेक्ट्री सिस्टम की विशेषता जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम पर कार्य किया जा सकता है। वह क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है।
✓True/ सही False/ गलत
- Q.50. In Window vista, you can see multiple Programme running simultaneously on different areas of your screen
✓True False
- Q.51. The name of a file consist of two parts/ फाइल के नाम के दो भाग होते हैं।
Folder Name/ फोल्डर नेम ✓Extension/ एक्सटेंशन
✓File Name/ फाइल नेम Sub folder Name/ सब फोल्डर नेम
- Q.52. We can Navigate through text using
इसका उपयोग करके हम टैक्सट में मूव कर सकते हैं।
Cpu /.सी.पी.यू. ✓Mouse/ माउस ✓Key board/ कीबोर्ड Monitor/ मोनिटर
- Q.53. ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है।
पेरिफेरियल डिवाइस तक पहुंच को कंट्रोल करना इनमें से कोई नहीं
मैमोरी का प्रबन्धन करना ✓मौलिक स्तर पर कम्प्यूटर को कंट्रोल करना

Word Processing

- Q.1. In MS Word 2007 when text is selected, a "....." is automatically displayed.
एम.एस. वर्ड २००७ में टेक्सट सेलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है।
Taskbar / टास्कबार Main Toolbar/ मिनिटूलबार
✓Mini Toolbar / मेन टूलबार Menu bar / मेन्यूबार
- Q.2. You can make for a TOC using: TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं।
Heading styles. (हेडिंग स्टाइलस) Custom styles. (कस्टम स्टाइलस)
Outline levels. (आउटलाइन लेवल्स) ✓All of these. (उपरोक्त सभी)
- Q.3. contains command for opening, saving, printing and closing a file.
..... में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होती है।
"Home"/ होम ✓"Office Button"/ ऑफिस बटन "View"/ व्यू "Insert"/ इंसर्ट
- Q.4. offers a wide variently of options to design documents.
डाक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं।
Microsoft Excel/ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल Microsoft PowerPoint/ माइक्रोसॉफ्ट पावरप्वॉइंट
✓Microsoft Word/ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड Microsoft Access/ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस
- Q.5. All of the following Ribben tabs are displayed in Word 2007, EXCEPT
दिए गए सारे रिबन टैब, वर्ड २००७ में प्रदर्शित होते हैं सिवाय,
Home/ होम Insert/ इंसर्ट ✓Tools/ टूल्स Page Layout/ पेजलेआउट
- Q.6. When you use the mouse to move the insertion point, the shape of mouse pointer is like I-beam.
जब आप इंजर्शन प्वाइंट को मूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं तो माउस प्वाइंटर I-बीम के आकार का हो जाता है।
✓True/ सही False/ गलत

Q.7. Index shows you at a glance, the topics that are included in the document and make it easier to locate information.

इंडेक्स एक नजर में डॉक्यूमेंट में शामिल किये गये टॉपिक्स को दिखाता है, जिससे सूचना को खोजना आसान होता है।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.8. You can click on the "Format" tab under "WordArt tools" to modify the WordArt as per your requirements.

आवश्यकतानुसार वर्डआर्ट को मोडिफाई करने के लिए, "वर्डआर्ट टूल" में "फारमेट" टैब पर क्लिक करते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.9. In Word, a file is called as a वर्ड में एक फाइल कहलाती है।

"template"/"टेम्पलेट"

"form"/"फॉर्म"

"database"/"डेटाबेस"

✓"document"/"डाक्यूमेंट"

Q.10. The Mail Merge feature, combines a list of data, typically a file of names and addresses.

मेल मर्ज फीचर्स में डाटा की लिस्ट, फाइल नेम एड्रेस कम्बाईन होता है।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.11. Microsoft Word is the only word processor available in the market.

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाजार में मौजूद अकेला वर्ड प्रोसेसर है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.12. Hyperlink identifies a location in the document or a section of text that you name for feature reference.

हाइपरलिंक डाक्यूमेंट में ऐसे स्थान या टेक्स्ट को चिन्हित करता है, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए नाम देते हैं।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.13. A is a reference from one part of a document to related information in same another part.

..... एक रिक्रेंस है जो डाक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है।

Hyperlink/ हाइपरलिंक

✓Cross-reference/ क्रॉस-रिक्रेंस

Document/ डाक्यूमेंट

Linkage/ लिंकेज

Q.14. For Indentation you may use the "Decrease Indent" and "Increase Indent" icons in the "Paragraph" group on the "....." tab for indenting your text.

अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप "....." टैब पर "पैराग्राफ" ग्रुप में "डिक्रीज इंडेंट" और "इंक्रीज इंडेंट" का उपयोग कर सकते हैं।

Insert/ इंजर्ट ✓Home/ होम

Page Layout/ पेज लेआउट

Data/ डेटा

Q.15. In MS Word 2007 the "References" tab contains spell check, the squares, and track changes.

एम.एस. वर्ड २००७ में "रिक्रेंस टैब" में स्पेल चैक, थिसॉरस, और ट्रेक चेंज होते हैं।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.16. The "....." is a dictionary of synonyms which you can use to find words that are synonyms with a term.

..... समानार्थक शब्दों की शब्दकोष है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं।

Translate/ ट्रांसलेट

Spelling/ स्पेलिंग ✓Thesaurus/ थिसोरस

Research/ रिसर्च

Q.17. A "....." is a listing of the topics that appear in a document with their associated page references.

..... एक विषय सूची है जो डाक्यूमेंट में अपने सम्बन्धित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है।

Index/ इंडेक्स

Table/ टेबल

Clipboard/ क्लिपबोर्ड

✓Table of contents/ टेबल ऑफ कन्टेन्ट

Q.18. You can format your document automatically applying styles, available in MS Word 2007.

एम.एस. वर्ड में मौजूद स्टाइल का उपयोग करके आप अपने डाक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉरमेट कर सकते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.19. A "....." is a connection to a location in the current document to another document or Web Site.

- के जरिए आप वर्तमान डाक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डाक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं।
- Link/ लिंक** **hyperlink/ हाइपरलिंक** **hypolink/ हाइपोलिंक** **linkage/ लिंकेज**
- Q.20. To view a document in the Print Preview Mode, click on the Office Button and select "Print → Print Preview."**
 प्रिंट प्रिव्यू मोड में डाक्यूमेंट को देखने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करके "प्रिंट → प्रिंट प्रिव्यू" सेलेक्ट करते हैं।
 True/ सही **False/ गलत**
- Q.21. You may use the "The Auto Complete Feature" to automatically correct the grammatical and spelling mistakes in your document.**
 डाक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए "द ऑटो कम्प्लीट फीचर" का उपयोग करते हैं।
True/ सही **False/ गलत**
- Q.22. Using a word Processing application you can create, modify, store, retrieve and print a document.**
 वर्ड प्रासेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके आप डाक्यूमेंट बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं सेव कर सकते हो।
 True (सही) **False (गलत)**
- Q.23. "Mini Toolbar" provides easy way to access the most frequently used formatting commands.**
 मिनी टूलबार के जरिये ज्यादातर उपयोग होने वाले फॉरमेटिंग कमाण्ड तक पहुंचने का आसान तरीका होता है।
 True/ सही **False/ गलत**
- Q.24. To print only selected pages in your documnet, you may use either the "Current page" or "Page" option under "Print Range."**
 डॉक्यूमेंट में केवल सेलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए, आप "प्रिंट रेंज" में या तो "करेंट पेज" या "पेजेज" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
 True/ सही **False/ गलत**
- Q.25. MS Word 2007 when we click on the Office Button the "Edit" menu is dispalyed.**
 एम.एस. वर्ड २००७ में ऑफिस बटन को क्लिक करने पर "एडिट" मेन्यू प्रदर्शित होता है।
True/ सही **False/ गलत**
- Q.26. A "....." is a pre-designed document useful for creating common purpose documents such as a fax, invoice or business letter.**
 फैक्स, अध्वनित या व्यवसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डाक्यूमेंट है।
 Template/ टैम्पलेट **File/ फाइल** **Form/ फॉर्म** **Database/ डेटाबेस**
- Q.27. A multileve list shows the list items at different levels rather than single level.**
 मल्टीलेवल लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है।
 True/ सही **False/ गलत**
- Q.28. A "....." is used to organize information into an eazy-to-read format of horizontal rows and vertical columns.**
Cell **Sheet** **Box** **Table**
- Q.29. To remove individual character at the left you may press ".....".**
 बायीं तरफ से किसी अकेले करेक्टर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं।
Delete/ डिलीट **Backspace/ बकस्पेस** **Enter/ एन्टर** **Spacebar/ स्पेसबार**
- Q.30. When you click on "Format Printer" icon on the "Home" tab, you can see that your mouse pointer changes to a "....." icon.**
 जब आप होम टैब पर, फॉरमेट प्रिंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस प्वाइंटर के आकार का हो जाता है।
 paintbrush/ पेंटब्रश **I-beam/ I-बीम** **Arrow/ ऐरो** **4-Way arrow/ चतुष्कोणीय ऐरो**
- Q.31. You may create a new document using standard templates provided by Word by checking on a template name in the "New Documnet" window.**
 वर्ड २००७ में सम्मिलित स्टैण्डर्ड टेम्पलेट्स का उपयोग करने के लिए "न्यू डाक्यूमेंट" विंडो में टेम्पलेट्स नेम पर क्लिक करके आप नये डाक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं।
 True/ सही **False/ गलत**

Q.32. MS Word's Mail Merge feature facilitates you to mail your document about special offers to a large number of people.

आप वर्ड के मेल मर्ज फिचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज कर सकते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.33. When you move your mouse over a button, a is displayed. That provides a detailed description of what the button does.

कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है।

✓Super-tooltip/ सुपरटूलटिप

Sub-tooltip/ सबटूलटिप

Info/ इन्फो

Key-tip/ की-टिप

Q.34. MS Word 2007 can quickly sort text, data or numbers ascending or descending order.

एम.एस. वर्ड २००७ टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा को वर्णित सिद्धान्त के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में तेजी से सोर्ट कर सकते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.35. Applications help you to create different types of written documents such as personal letters, from letters, brochures, faxes and even professional manuals.

..... एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रॉशर, फैक्स और व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है।

✓Word Processor/ वर्ड प्रोसेसर

Word Pad/ वर्ड पैड

Note Pad/ नोट पैड

None of these/ इनमें से कोई नहीं

Q.36. The "Mailings" tab contains the items required for mail merge.

मेलिंग टैब में मेल मर्ज में आवश्यक आइटम शामिल होते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.37. Word places footnotes at the end of each page and end notes at the end of documents.

वर्ड में फुटनोटस प्रत्येक पेज के अंत में ओर एण्डनोटस डॉक्यूमेंट के अंत में होते हैं।

✓True/ सही

False/ गलत

Q.38. To remove the hyperlink while retaining the text, right - click on it and select "Remove Hyperlink."

हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर राईट क्लिक करके, रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.39. MS Word indicates formatting inconsistencies with a red wavy underline.

वर्ड में अनुचित फॉरमेटिंग लाल तरंगीय अंडरलाइन के साथ निरूपित होती है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.40. To automatically correct the document, we use

डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए, हम उपयोग करते हैं।

✓The auto correct feature/ ऑटो करेक्ट फिचर

The auto complete feature/ ऑटो कम्प्लीट फीचर

Formating/ फोर्मेटिंग

Building Blocks/ बिल्डिंग ब्लॉक्स

Q.41. A "....." is a common application for news paper columns.

न्यूज पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है -

News reading (न्यूज रिडिंग)

✓News letter (न्यूज लेटर)

News (न्यूज)

News editor (न्यूज एडिटर)

Q.42. Personal letters, form letters, brochures, faxes and professional manuals can be using word processors.

पर्सनल लेटर्स, फोर्म लेटर्स, ब्राउजर्स, फैक्स, प्रोफेशनल मैनुअलस का उपयोग वर्ड प्रोसेसर में किया जाता है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.43. The set margins, select "Margins" from the "Page Setup" group on the "Page Layout" tab.

मार्जिन्स सेट करने के लिए पेज सेट अप ग्रुप में पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.44. Drop caps are the first characterls at the beginning of a paragraph that are enlarged, converging several lines.

ड्रॉप कैप्स पैराग्राफ का प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाईनों तक फैला होता है।

- ✓True (सही) False (गलत)
- Q.45. A multilevel list shows the list items at different levels rather than single level.
✓True False
- Q.46. The "Page Layout" tab contains margin, orientation, and spacing properties.
पेज लेआउट टैब में मार्जिन, ओरियन्टेशन और स्पेसिंग प्रॉपर्टीज शामिल होते हैं।
✓True (सही) False (गलत)
- Q.47. A "....." is used to mark a certain location in a document.
डाक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग होता है।
Index (इंडेक्स) Hyperlink (हाइपरलिंक)
✓Bookmark (बुकमार्क) Table (टेबल)
- Q.48. You may click on "Replace All" button to replace all occurrences of the search text by specified new text.
वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप "रिप्लेस ऑल" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
✓True (सही) False (गलत)
- Q.49. While working on a document in MS Word 2007 when we click on the picture, it is surrounded by eight boxes called "Sizing handles" which is used to change the size of the graphic.
एम.एस. वर्ड २००७ में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं, तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए, इसके चारों तरफ आठ हैंडल नजर आते हैं जिसको साइजिंग हैंडल कहते हैं।
✓True (सही) False (गलत)
- Q.50. While changing the level of an item in hierarchy you can increase the indent by using
हायरआर्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं।
✓"Tab"/ टैब "Backspace"/ बैकस्पेस "Delete"/ डिलीट "Spacebar"/ स्पेसबार
- Q.51. Footnotes or Endnotes are used to provide certain ".....".
फुटनोट्स व एण्डनोट्स का उपयोग के लिए किया जाता है।
✓References/ रिक्रेंस Information/ सूचना Points/ प्वाइंट Lists/ लिस्ट
- Q.52. If you want the data to be automatically get updated in a document when the current data changes, check the "Update automatically" box.
यदि आप चाहते हैं कि डाक्यूमेंट में तारीख अपने आप अपडेट हो जाए तो "अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स को चैक करें।
✓True (सही) False (गलत)
- Q.53. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप जैसे डाक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं।
✓ब्राशर ✓रिज्यूम ✓रिपोर्ट प्रेजेन्टेशन
- Q.54. डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग, इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए "द ऑटो कम्प्लीट फीचर" का उपयोग कर सकते हैं।
सही ✓गलत
- Q.55. इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं।
सीपीयू ✓कीबोर्ड मोनीटर
✓माउस
- Q.56. और लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर हैं। (नोटपैड ✓माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ✓वर्डपैड लीप)

Spread Sheet

- Q.1. In formulabar, an adjacent range is specified by giving the starting and editing cell addresses separated by a
- फारमूले में, शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे द्वारा पथक करते हैं।
Semicolon/ सेमिकॉलन (;) Comma/ कोमा (,)
Full stop/ फुलस्टॉप (.) ✓Colon/ कॉलन (:)
- Q.2. The cell address is displayed in the "Text Box".
टेक्स्ट में सेल एड्रेस दिखाई देता है।
True/ सही ✓False/ गलत
- Q.3. A is a visual representation of data and conveys the information in an easy to understand and attractive manner.
डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है।

- ✓ chart/ चार्ट table/ टेबल picture/ पिक्चर graphic/ ग्राफिक
- Q.4. In formulas, a non-adjacent range is specified by giving the cell addresses separated by a**
 फॉर्मूला में, द्वारा अलग किये गये सेल एड्रेस के जरिये नॉन एक्जेसेंट रेंज का वर्णन करता है।
 Semicolon/ सेमिकोलन (;) ✓ Comma/ कोमा (,)
 Full stop/ फुलस्टॉप (.) Colon/ कॉलन (:)
- Q.5. You can use the to enter and edit data, instead of editing directly in your work sheet.**
 अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप का उपयोग भी कर सकते हैं।
 ✓ formula bar/ फारमूला बार title bar/ टाइटलबार
 menu bar/ मेन्यूबार space bar/ स्पेसबार
- Q.6. Your Excel 2007 file is stored with the extension ".....".**
 आपकी एक्सेल २००७ फाइल "....." एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है।
 ".docx" ✓ ".xlsx" ".xltx" ".zltx"
- Q.7. In an electronic spreadsheet or worksheet, data can be edited, new data can be added, and unwnated data can be deleted.**
 इलैक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट में डेटा को एडिट, नए डेटा को शामिल और अनुपयोगी डेटा को डिलीट किया जा सकता है।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.8. The "Review" tab contains proofing tools like spell check & also has button that let you add comments to a worksheet and manage revisions.**
 "रिव्यू" टैब में स्पेल चेक की तरह प्रूफिंग टूल होता है और इसमें कई बटन होते हैं जो वर्कशीट और पुनरीक्षण के लिए कमेंट को जोड़ने की सुविधा देते हैं।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.9. The "....." tab contains proofing tools like spell check.**
 इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती हैं, जैसे
 ✓ "Review" (रिव्यू) "Data" (डेटा) "View" (व्यू) "Insert" (इंसेट)
- Q.10. You can create and design our own work book templates.**
 आप अपना खुद का वर्कबुक टेम्पलेट तैयार व डिजाइन कर सकते हैं।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.11. In a spreadsheet programme as you move from one cell to another, the reference or address to the active cell appears in the "Name Box."**
 जैसे ही आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं, तो एक्टिव सेल का एड्रेस या रिफरेंस नाम बॉक्स में उपस्थित हो जाता है।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.12. To start the Microsoft Excel Application, click on the "Start" button and select "All programmes → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2007."**
 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके "ऑल प्रोग्राम → माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस → माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल २००७" सेलेक्ट करते हैं।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.13. The "Insert" tab lets you add special ingredients like tables, graphics, charts, and hyperlinks in a spreadsheets programme.**
 "इंसेट" टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.14. The text that appears in the bottom margin of the page is called as the "Footer".**
 जो टेक्स्ट पेज के बॉटम मार्जिन पर उपस्थित रहता है उसे "फुटर" कहते हैं।
 ✓ True (सही) False (गलत)
- Q.15. In Excel, a formula always begins with an equal sign (=) and uses airthmetic operators like +, -, *, /, %, and ^ to perform addition, subtration, multiplication, division, percent and exponentiation respectively.**
 एक्सेल में फारमूला हमेशा बराबर (=) के चिन्ह से शुरू होता है और यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रतिशत और बीजगणितीय कार्य के लिए क्रमानुसार अरिथमेटिक संचालक जैसे +, -, *, /, %, और ^ का उपयोग करता है।
 ✓ True (सही) False (गलत)

Q.16. While working you may have to reference data from more than one sheet which is called referencing multiple sheets.

जब आप एक से अधिक रिफ्रेंस डेटाशीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह रिफ्रेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.17. The default page orientation setting is "Landscape".

“लेडस्केप” डिफॉल्ट पेज ओरियेंटेशन सेटिंग है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.18. "....." is a method which aids you in forecasting values.

“.....” ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है।

"Find"/“फाइंड” "Replace"/“रिप्लेस” ✓"Goal Seek"/“गोल सीक” "Go to"/“गो टू”

Q.19. In MS Excel 2007, below the "Ribbon", we can see Name Box on the left and the Formula Bar on the right.

एम.एस. एक्सेल २००७ में रिबन के नीचे बायीं ओर नेम बॉक्स और दांयी ओर फारमूला बार नजर आता है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.20. A "....." is a prewritten formula the performs calculations automatically.

..... पूर्वलिखित फारमूले होते हैं, जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं।

✓"Function"/ फंक्शन

"Equation"/ इक्वेशन

"Template"/ टेम्पलेट्स

"Reaction"/ रिएक्शन

Q.21. MS Excel 2007 is used for different types of varying from vary simple to complex.

एम.एस. एक्सेल २००७ का उपयोग विभिन्न प्रकार के में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं।

✓calculations/ गणना

manipulations/ मैनुपुलेशन

presentations/ प्रेजेंटेशन

expressions/एक्सप्रेशन

Q.22. Your excel file is stored with the extension ".xlsx".

आपकी एक्सेल फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.23. "Autocorrect" is a feature of Microsoft Excel 2007 that makes entering a series of heading easier by logically repeating and extending the series.

“ऑटोकॉरेक्ट” माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल २००७ का ऐसा फीचर है जो श्रंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.24. "A relative reference" is a cell or range reference used in a formula whose location does not change when a formula is copied.

“रिलेटिव रिफ्रेंस” ऐसी सेल या रेंज रिफ्रेंस है जिसका उपयोग फॉर्मूला में उस समय होता है जब फॉर्मूला कॉपी करने पर स्थान में परिवर्तन नहीं होता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.25. While changing the level of an item in the hierararchy you can increase the indent by using.

हायरआर्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिये आप इसका उपयोग करके इंडेंट बढ़ा सकते हैं।

✓"Tab" (टैब)

"Backspace" (बैकस्पेस)

"Delete" (डिलीट)

"Spacebar" (स्पेसबार)

Q.26. To set margins, select "Margins" from the "Page Setup" group on the "Page Layout" tab.

✓True

False

Q.27. To remove individual character at the left you may press ".....".

बायीं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिये आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं।

Delete (डिलीट) ✓Backspace (बैकस्पेस) Enter (एन्टर) Spacebar (स्पेसबार)

Q.28. Drop caps are the first character/s at the beginning that are enlarged, convering several lines.

ड्रॉप कैप पैराग्राफ का प्रथम अक्षर है, जो बहुत बड़ा होता है, व कई लाइनों तक फैला होता है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.29. The intersection of a row and a column is called a ".....".

रॉ और कॉलम का कटाव “.....” कहलाता है।

Table/ टेबल

✓Cell/ सेल

Data/ डेटा

Sheet/ शीट

Q.30. A is a file that is provided by the application in a "ready to use" format.

..... एक ऐसी फाइल है, जो “रिडि टू यूज” रूप में एप्लीकेशन द्वारा प्रदान करता है।

Q.31. A is a visual representation of data and conveys the information in a easy to understand and attractive manner.

..... डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है।

✓Chart/ चार्ट

Table/ टेबल

Picture/ पिकचर

Graphic/ ग्राफिक्स

Q.32. To move among the worksheet in your workbook, you need to click on the "Workbook" tab.

अपनी वर्कबुक में विभिन्न वर्कशीट्स के बीच मूव करने के लिए "वर्कबुक" टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.33. A theme comprise of a color palette, font set, and effects.

✓True

False

Q.34. You can view two areas of worksheet and lock rows or columns in one area by splitting or freezing panes.

स्पीलिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के दो क्षेत्रों को देख सकते है ओर एक क्षेत्र में रॉ या कॉलम को लॉक कर सकते है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.35. "....." are individual designs that can be applied to different parts to the document.

"....." स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डाक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है।

"Graphics"/"ग्राफिक्स"

✓"Styles"/"स्टाइल"

"Pictures"/"पिकचर"

"Themes"/"थीम"

Q.36. "....." contains commands for opening, saving, printing, and closing a file.

फाइल को ओपन, सेव, क्लोज, एवं प्रिंट करने की कमांड इसमें होती है।

"View" tab/ व्यू टैब

"Office Button"/ ऑफिस बटन

"Insert" tab/ इंसेर्ट टैब

"Review" tab/ रिव्यू टैब

Q.37. When a formula containing an absolute cell reference is copied to another row or column in the worksheet, the cell reference does not change.

जब एक फार्मूला, किसी वर्कशीट में दूसरी रो या कॉलम के सेल रिफरेंस कॉपी में रखा जाता है तो यह सेल रिफरेंस बदलता नहीं है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.38. The "header" is usually the title you give on the page.

हेडर सामान्य रूप से टाइटिल होती है जिसे आप पेज पर दे सकते है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.39. The text that appears in the top margin of the page is called the

पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टैक्सट को कहते है।

Footer/ फुटर

Column/ कॉलम ✓Header/ हेडर

Paragraph/ पैराग्राफ

Q.40. In a spreadsheet programme a table is a selection of two or more cells.

स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, टेबल दो या दो से अधिक सेलो का सेलेक्शन है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.41. The "title" is usually given as the footer.

टाइटल, फोल्डर में दिया जाता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.42. To stop the automatic relative cell references, i.e. to make the cell reference absolute, type a character before the column and row number.

सेल निश्चित करने के लिए यानि संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए, कॉलम और रॉ की संख्या के पहले टाइप करते है।

(hash)/ # (हैश)

✓\$ (dollar)/ \$ (डॉलर)

% (percent)/ % (प्रतिशत)

* (star)/ * (स्टार)

Q.43. A theme comprise of a color peletle, font set, and effects.

एक थीम में कलर पैलेट, फॉन्ट सेट ओर इफेक्ट शामिल होते है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.44. To select a group or range of cells, click on the cell you want to begin, drag your cursor and release it when you have reached the end of the selection.

सेल के एक ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए, जिस सेल से आप शुरू करना चाहते है, उस सेल पर क्लिक करते है। अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए अपनी इच्छानुसार सेल के अंतिम छोर तक पहुंच कर इसे छोड़ देते है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.45. If we require to add more data to be on one page, we change the page orientation to landscape.

एक पेज पर अधिक डेटा को फिट करने के लिए, आप पेज का ओरियेंटेशन लैंडस्केप में बदलते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.46. Each worksheet can be used to organized different types of related information.

प्रत्येक वर्कशीट का उपयोग विभिन्न प्रकार की सम्बन्धित सूचना को संगठित करने के लिए किया जा सकता है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.47. The "table" is a visual representation of data and convey the information in an easy to understand and attractive manner.

“टेबल” डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है तथा सूचना को आकर्षक ओर आसान तरीके से प्रस्तुत करता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.48. "Themes" provided with MS Excel 2007 are universal designs that unify all of the styles.

एम.एस. एक्सेल २००७ में दी हुई, “थीम” एक सार्वभौमिक डिजाइन है जो सभी स्टाइल के लिए नियत होती है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.49. In Microsoft Excel 2007, a single file or document is called a ".....".

माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल २००७ में, एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट कहलाता है।

✓Workbook/ वर्कबुक

Worksheet/ वर्कशीट

Sheet/शीट

Notebook/ नोटबुक

Q.50. "Notebook" contains a collection of one or more worksheets and, optionally, chart sheets containing graphic pictures of your worksheet data.

“नोटबुक” में एक या अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है, और चार्टशीट में आपके वर्कशीट डेटा की ग्राफिक तस्वीरें होती हैं?

True/ सही

✓False/ गलत

Q.51. With the option, you can freeze either or both, rows and columns ie. regardless of where you are in the worksheet you can see the information in these rows and/or columns at all times.

..... ऑप्शन के साथ रॉ या कॉलम या दोनों को फ्रिज कर सकते हैं, अर्थात् वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं।

"Split*/“स्प्लिट”

"Arrange*/“अरेज”

"Fitter*/“फिल्टर”

✓"Freeze Panes*/“फ्रीज पेन्स”

Q.52. You can create charts to represent data more effectual in an electronic sheet or worksheet.

इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट में डेटा को अधिक आकर्षक तरीके से दर्शाने के लिए आप चार्ट तैयार करते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.53. In a spreadsheet each cell has its own address called as "cell address".

स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.54. A template file in MS Excel 2007 has an extension “.....”.

एम.एस. एक्सेल २००७ में, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है।

“.docx”

“.yltx”

✓“.xltx”

“.zltx”

Q.55. A “.....” is like an accountant’s ledger consisting of rows and columns.

..... अकाउंटेंट के बही खाते के समान है, जो रॉ और कॉलम में रखा गया है।

Table/ टेबल

✓Microsoft Excel 2007/एम.एस. एक्सेल २००७

Format/ फारमेट

Sheet/ शीट

Q.56. A “table” is a visual representation of data and conveys the information in an easy to understand and attractive manner.

“टेबल” डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है तथा सूचना को आकर्षक एवं आसान तरीके से प्रस्तुत करता है।

True (सही)

✓False (गलत)

Q.58. जब आप एक से अधिक रिफ्रेंस डेटाशीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह रिफ्रेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है।

✓सही

गलत

Q.59. एम.एस. एक्सेल २००७ का उपयोग विभिन्न प्रकार के में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोगी होते हैं।

एक्सप्रेशन

✓गणना

मैनुपुलेशन

प्रेजेंटेशन

Presentation Graphic

- Q.1. The "Insert" tab contains the basic set of objects which you can insert into a slide.**
 "इंसर्ट" टैब में किसी आब्जेक्ट के बेसिक सेट होते हैं जिसे आप स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं।
 ✓True (सही) False (गलत)
- Q.2. Click "Replace All" to replace all occurrences of search text by the specified new text.**
 डाक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को प्रत्येक बार नए टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए "रिप्लेस आल" क्लिक करते हैं।
 ✓True (सही) False (गलत)
- Q.3. A "....." graphic is a visual representation of your information and ideas.**
 ग्राफिक की सूचना ओर विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है।
 "WordArt"/"वर्डआर्ट" "ClipArt"/"क्लिपआर्ट" ✓"SmartArt"/"स्मार्टआर्ट"
 "Autoshape"/"ऑटोशेप"
- Q.4. To start a Microsoft PowerPoint Application, click on the "Start" button and select "All programmes → Microsoft Office → Microsoft Office PowerPoint 2007".**
 माइक्रोसॉफ्ट पॉवरप्वॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए "स्टार्ट" बटन पर क्लिक करके "ऑल प्रोग्राम
 → माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस → माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पॉवरप्वॉइंट २००७" को सेलेक्ट करते हैं।
 ✓True (सही) False (गलत)
- Q.5. "....." refer to a ready-to-use picture.**
 "....." उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है।
 "WordArt"/"वर्ड आर्ट" ✓"ClipArt"/"क्लिपआर्ट"
 "SmartArt"/"स्मार्टआर्ट" "Autoshape"/"ऑटोशेप"
- Q.6. To open a recently used presentation you may click the office button and then click on the presentation name in the list displayed under "Recent Documents".**
 हाल में उपयोग किए गए प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, ऑफिस बटन पर क्लिक करके "रिसेंट डाक्यूमेंट" के अन्तर्गत प्रदर्शित सूची में प्रेजेंटेशन नाम पर क्लिक करते हैं।
 ✓True (सही) False (गलत)
- Q.7. SmartArt programs are designed to help you to create an effective presentation.**
 स्मार्टआर्ट प्रोग्राम्स को आकर्षक प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मदद के लिए डिजाइन किया गया है।
 True/ सही ✓False/ गलत
- Q.8. The "....." tab contains tools that controls how to slide show is presented.**
 स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल "....." टैब में होते हैं।
 "Design"/"डिजाइन" ✓"Slide Show"/"स्लाइड शो" "Review"/"रिव्यू" "View"/"व्यू"
- Q.9. Minature pictures of slides displayed in the slide sorter view.**
 स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती हैं।
 ✓True (सही) False (गलत)
- Q.10. which displays icon that represent commonly used commands such as Save, Undo, and Redo.**
 एक आइकॉन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, ओर रिडू रहते हैं।
 Home Button/ होम बटन The Ribbon/ रिबन
 ✓The Quick Access Toolbar/ क्विक एक्सेस टूलबार The Office Button/ ऑफिस बटन
- Q.11. A "....." is a connection to a location in the current documnet, another document or a website.**
 वर्तमान डाक्यूमेंट के स्थान से अन्य डाक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला सम्पर्क है।
 Highlink/ हाइलिंक hipolink/ हाइपोलिंक
 linkage/ लिंकेज ✓hyperlink/ हाइपरलिंक
- Q.12. are used to create slide shows on the computer**
 ✓Presentation graphics Analytical development programs
 Super Slide packages Slide maker tools
- Q.13. To preview your presentation as web page, you need to add the "Web Page Preview" command to Ribbon.**
 प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में प्रिव्यू करने के लिए, रिबन में "वेब पेज प्रिव्यू" कमांड को जोड़ने की आवश्यकता होती है।
 True/ सही ✓False/ गलत

- Q.14. With "Slide Show View" you can see how your graphics timings, movies, animated elements and transition effects will look in the actual show.
 True False
- Q.15. In graphic presentation, programmes each presentation is divided into
 ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है।
 charts/ चार्ट्स slides/ स्लाइड्स
 tables/ टेबल pictures/ पिक्चर
- Q.16. In PowerPoint "Match case": you may check this box for a case sensitive search.
 पावरपॉइंट "मैच केस" सवेदनशील (केस सेंसिटिव) सर्च के लिए इस बॉक्स को चेक करते हैं।
 True (सही) False (गलत)
- Q.17. "Scale to fit paper": check this box to print the slides with an outer frame.
 "स्केल टू फिट पेपर" स्लाइड को आउटर फ्रेम के साथ प्रिंट करने के लिए इस बॉक्स को चेक करें।
 True/ सही False/ गलत
- Q.18. In PowerPoint "build effects" are animations to slide contents..
 पावरपॉइंट में "बिल्ड इफेक्ट" स्लाइड के कन्टेन्ट का एनीमेशन होते हैं।
 True (सही) False (गलत)
- Q.19. A "....." is a pre-designed presentation designed for common purpose such as photo album or a quiz show.
 सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्ववर्णित प्रेजेंटेशन है।
 "Chart"/ चार्ट "Table"/ टेबल "Slide"/ स्लाइड "Template"/ टेम्पलेट
- Q.20. You may create a new presentation using a template provided by Powerpoint.
 पावरपॉइंट द्वारा प्रदान किये गये टेम्पलेट्स का उपयोग करके आप नए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं।
 True (सही) False (गलत)
- Q.21. We can insert a video clip on a PowerPoint Slide.
 पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हम फिल्मों की एक छोटी क्लिप का समावेश कर सकते हैं।
 True (सही) False (गलत)
- Q.22. When you move your mouse over a sizing handle the pointer becomes a ".....".
 Round Arrow Two-headed Arrow Plus Sign Four-headed Arrow
- Q.23. PowerPoint Presentation is a component of following application software.
 पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है।
 Leap Office/ लिप ऑफिस Start Office/ स्टार ऑफिस
 Open Office/ ओपन ऑफिस MS Office/एम.एस. ऑफिस
- Q.24. "Slide Show View" is an exclusive view of your slides in thumbnail form.
 "स्लाइड शो व्यू" थंबनेल के रूप में सभी स्लाइड्स को प्रदर्शित करता है।
 True/ सही False/ गलत
- Q.25. Headers and Footers are used to add information such as slide numbers, the time and date, a company logo or the presentation title to the top of a hand out or notes page in your presentation, or to bottom of a slide, handout or notes page.
 प्रेजेंटेशन में हेडआउट या नोट्स पेज के ऊपर या नीचे स्लाइड की संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन का शीर्षक को जोड़ने के लिए हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं।
 True (सही) False (गलत)
- Q.26. To see a preview of your slide in a window on the screen, click on the Quick Access Toolbar and select "Print → Print Preview".
 स्क्रीन पर विंडों में अपने स्लाइड की प्रिव्यू को देखने के लिए, क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करके "प्रिंट → प्रिंट प्रिव्यू" को सेलेक्ट करते हैं।
 True/ सही False/ गलत
- Q.27. In Graphics Presentation Programs each presentation is divided into charts.
 ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन दो चार्ट्स में विभाजित होता है।
 True/ सही False/ गलत
- Q.28. Using WordArt graphics, you can effectively communicate your message in a quick and simple way.
 True False
- Q.29. You may change the presentation views by checking on the buttons displayed on the "....." at the bottom of the screen.

Q.44. The "Sizing Handles" at the slides and corners of the selection rectangle can be used to adjust the size of the place holder.

सेलेक्ट किए गए आयात के बगल में ओर किनारे की ओर "साइजिंग हैंडल" का उपयोग प्लेसहोल्डर के आकार को संतुलित करने के लिए किया जाता है।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.45. To open a file that you have previously saved, click the Ribbon and select "Open".

पहले सेव की गई फाइल को खोलने के लिए, रिबन पर क्लिक करके "ओपन" सेलेक्ट करते हैं।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.46. "....." is the main editing view.

..... मुख्य एडिटिंग व्यू हैं।

Slide Sorter View/ स्लाइड सॉर्टर व्यू

✓Normal View/ नॉर्मल व्यू

Slide Show View/ स्लाइड शो व्यू

Notes Page/ नोटस पेज

Q.47. We can insert a audio clip on a powerpoint slide.

पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन में हम ध्वनि का समावेश कर सकते हैं।

✓True (सही)

False (गलत)

Q.48. In powerpoint the "Insert" tab contains tools to design your slides.

True

✓False

Q.49. The "....." tab contains the basic formatting tools.

"....." टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं।

"Design"/ डिजाइन

"View"/ व्यू

"Insert"/ इंसर्ट

✓"Home"/ होम

Q.50. The "Slides" tab makes it easy to navigate through your presentation and to see the effects of changes and also rearrange, add or delete slides.

✓True

False

Q.51. The "Outline" tab shows you slides as your thumbnail sized images while you edit.

एडिट के दौरान "आउटलाइन" टैब आपकी स्लाइडों को थंबनेल के आकार की तस्वीरों के रूप में दिखाता है।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.52. In PowerPoint the "Insert" tab contains tools to design your slides.

पॉवरपॉइंट में "इंसर्ट" टैब में स्लाइड डिजाइन के लिए टूल्स होते हैं।

True/ सही

✓False/ गलत

Q.53. फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने, ओर बंद करने के निर्देशों को प्रदर्शित करने वाला ऑफिस बटन।

✓सही

गलत

Q.54. एक विशेष स्लाइड है, जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटिल ओर टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करती है।

स्लाइड

मेन

मास्टर

उपरोक्त सभी

Q.55. जब आप पॉवरपॉइंट को स्टार्ट करते है, तो आप "प्रेजेंटेशन ?" के नाम से नॉर्मल व्यू में ब्लैक प्रेजेंटेशन देखते हैं।

✓सही

गलत

Q.56. इस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है।

✓स्लाइड सॉर्टर

नॉर्मल

स्लाइड शो

आउटलाइन

DBMS Practice

Q.1. आप एक स्पेस के साथ फ़िल्ड के नाम की शुरूआत कर सकते हैं।

You can start the name of the field with a space.

सही (True)

✓गलत (False)

Q.2. "....." एक डाटाबेस ऑब्जेक्टस है जिसका उपयोग मुख्य स्क्रीन पर रिकॉर्ड लिखने ओर प्रदर्शित करने तथा मौजूद रिकॉर्ड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है।

"....." is a database object that is mainly used to enter and display records and make changes to existing records onscreens.

क्वी (query)

✓फॉर्म (form)

रिपोर्ट (report)

टेबल (table)

Q.3. प्राइमरी नंबर एक विशिष्ट ओर क्रमगत संख्या होती है तो टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने पर स्वतः बढ़ती है।

Primary Number is a unique, sequential number that is automatically incremented by one whenever a new record is added to the table.

सही (True)

✓गलत (False)

- Q.4.** प्रत्येक कॉलम ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिसमें रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को रक्ती है।
Each column is a record which is the smallest unit of information about a record.
 सही (True) ✓ गलत (False)
- Q.5.** फॉर्म प्रिंट किया जा सकने वाला आउटपुट है जिसको टेबल और क्वेरीज से तैयार किया जाता है।
A form is a printed output generated from tables and queries.
 सही (True) ✓ गलत (False)
- Q.6.** रिबन में टास्क-ओरियन्टेड टैब, ग्रुप और कमांड बटन होते हैं।
The ribbon has Task-oriented Tabs, Groups and command buttons.
 ✓ सही (True) गलत (False)
- Q.7.** एक इलैक्ट्रॉनिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कई तरीकों से सूचना को स्टोर, संगठित, एक्सेस, मैनुपुलेट और प्रस्तुत कर सकता है।
"....." is an electronic database management system which can store, organize, access, manipulate, and present information in many different ways.
 ✓ एम एस एक्सेस २००७ (MS Access 2007) एम एस वर्ड (MS Word)
 एम एस एक्सेल (MS Excel) एम एस पावरपॉइंट (MS PowerPoint)
- Q.8.** एक व्यवसायिक डेटाबेस का अधिकतर उपयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में होता है।
A professional database is the most widely used database structure.
 सही (True) ✓ गलत (False)
- Q.9.** टेबल समान फिल्ड द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं।
The tables are related or linked to one another by a common field.
 ✓ सही (True) गलत (False)
- Q.10.** जब आप डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं, तो "डिस्प्ले प्रॉपर्टीज" के अन्तर्गत इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज प्रदर्शित होती है।
When you select a data type, its default properties are displayed under "Display Properties."
 सही (True) ✓ गलत (False)
- Q.11.** "....." डेटा टाइप का उपयोग केवल संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
"....." data type is used to store numbers only.
 ऑटोनंबर (Auto Number) टेक्स्ट (Text) ✓ नंबर (Number) डेट/टाइम (Date/Time)
- Q.12.** डिफॉल्ट वैल्यू का उपयोग उस वैल्यू का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो नये रिकॉर्ड के जोड़े जाने पर फिल्ड में स्वतः ही एंटर हो जाता है।
A default value is used to specify a value that is automatically entered in a field when a new record is added.
 ✓ सही (True) गलत (False)
- Q.13.** "....." एक्सेस २००७ में सूचना को स्टोर करता है।
"....." stores the information in Access 2007.
 ✓ टेबल (Table) क्वेरीज (Queries) रिपोर्ट (Reports) फॉर्म (Forms)
- Q.14.** फिल्ड प्रॉपर्टी ऐसी विशेषता है जो फिल्ड का वर्णन करती है।
A field property is a characteristic that helps to define a field.
 ✓ सही (True) गलत (False)
- Q.15.** "....." डेटा टाइप का उपयोग इमेज, डॉक्यूमेंट, ग्राफ आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
"....." data type is used to store images, documents, graphs etc.
 हाइपरलिंक (Hyperlink) ✓ OEL ऑब्जेक्ट (OEL Object) टेक्स्ट (Text) डिस्क्रिप्शन (Discription)
- Q.16.** "....." फिल्ड में एंटर किये जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है।
"....." decides the maximum number of characters that can be entered in the field.
 फॉरमेट (Format) इनपुट मास्क (Input Mask) कैप्शन (Caption) ✓ फिल्ड साइज (Field Size)
- Q.17.** डेटाबेस में सूचना में स्टोर होती है।
The information in a database is stored in a
 चार्ट (Chart) बॉक्स (Box) फोल्डर (Folder) ✓ टेबल (Table)
- Q.18.** एक डिफॉल्ट डेटा टाइप है और इसका उपयोग शब्द, शब्द और संख्या के मिश्रण और संख्या जिसकी गणना नहीं की जाती, ऐसे टेक्स्ट एंट्री करने के लिए किया जाता है।
"....." is the default data type and is used to store text entries like words, combinations of words and numbers and numbers that are not used in calculations.

- टेक्स्ट (Text) संख्या (Number) मेमो (Memo) ✓करेंसी (Currency)
- Q.19. एक्सेस में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सोर्ट कर सकते हैं।
In Access, you can sort data in ascending or descending order.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.20. डेटाबेस में किसी विषय पर कार्य करने और प्रदर्शित करने के लिए एक्सेस विभिन्न फॉरमेट प्रदान करता है, जिन्हें "लिस्ट्स" कहते हैं।
Access provides different window formats called "Lists" to display and work with the objects in a database.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.21. एक्सेस में, प्रत्येक डेटाबेस अकेली फाइल में स्टोर होता है, जिसका एक्सटेंशन है -
In Access, every database is stored in a single file which has the extension.
 ".docx" ".rtf*" ✓".accdb" ".txt"
- Q.22. डेटा टाइप, फ़िल्ड में रखे गये डेटा के प्रकार का वर्णन करता है।
The data type defines the type of data the field will contain.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.23. का उपयोग फ़िल्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए किया जाता है।
A is used to identify the data stored in a field.
 टेबल (Table) ✓फ़िल्ड नेम (Field Name) बॉक्स (Box) ब्रैकेट (Bracket)
- Q.24. डेटाबेस सम्बन्धित सूचनाओं का एक संगठित संग्रह है।
A database is an organized collection of related information.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.25. "....." डेटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकता के अनुसार डेटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
"....." simplifies data entry and controls what data is required and how it is to be displayed.
 फॉरमेट (Format) ✓इनपुट मास्क (Input Mask) कैप्शन (Caption) फ़िल्ड साइज (Field Size)
- Q.26. एक्सेस स्वतः प्राइमरी की के लिए कोड तैयार करता है, जो क्वेरीज को तैयार करने और अन्य कार्यों को तेज करने में मदद करता है।
Access automatically creates a code for the primary key, which helps makes queries and other operations.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.27. डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है।
..... provides a number of data types.
 वर्ड २००७ (Word 2007) ✓एक्सेस २००७ (Access 2007) एक्सेल
 २००७ (Excel 2007) पावर प्वाइंट २००७ (PowerPoint 2007)
- Q.28. टेबल में कोई रिकॉर्ड जोड़ना, डिलीट करना या मोडिफाई करना काफी कठिन होता है।
It is difficult to add, delete and modify records from a table.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.29. एक्सेस २००७ का "फॉर्म विज़ार्ड" फीचर फॉर्म को डिजाइन करना आसान बनाता है।
The "Form Wizard" feature of Access 2007 makes it very easy to design forms.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.30. जब आप डेटाबेस खोलते हैं या एक नया डेटाबेस बनाते हैं, तो टेबल, फॉर्म, और रिपोर्ट जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम नेविगेशन वेन में मौजूद रहता है।
When you open a database or create a new one, the names of your database objects such a tables, forms and reports appear in the Navigation Pane.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.31. चार्ट लंबवत् कॉलम (जिन्हें फ़िल्ड कहते हैं) और क्षैतिज से (जिन्हें रिकॉर्ड कहते हैं) से बने होते हैं।
Charts are made up of vertical columns (called fields) and horizontal rows (called records)
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.32. एम. एस. एक्सेस के कुछ फीचर्स का उपयोग करके आप जल्दी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं।
You can quickly produce reports using some MS Access features.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.33. "....." ऐसी विंडों है जिसे आप टेबल में दी गई सूचना को आसानी से देखने के लिए या सूचना में बदलाव करने के लिए तैयार करते हैं और श्रेणीबद्ध करते हैं।
"....." are windows that you create and arrange in order to easily view or change the information in a table.
 टेबल (Table) ✓क्वेरीज (Queries) रिपोर्ट (Report) फॉर्म (Forms)

- Q.34. निश्चित अवस्था या आवश्यकताओं से मेल करने के लिए "....." डेटा एंट्री को अवरोधित करता है।
"....." restricts, the data easy to meet certain conditions or requirements.
 वैलिडेशन टेक्स्ट (Validation Text) डिफॉल्ट वैल्यू (Default Value)
 ✓वैलिडेशन रूल (Validaton Rule) फॉरमेट (Format)
- Q.35. फॉर्म आपको टेबल की सारी सूचनाओं या कुछ को प्रिंट करने में मदद करता है।
Forms help you print same or all of the information in a table.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.36. "....." डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने में किया जा सकता है जिनको टेक्स्ट फ़िल्ड में स्टोर नहीं किया जा सकता।
"....." data type is used to store text that is too long to be stored in a text field.
 टेक्स्ट (Text) नंबर (Number) ✓मेमो (Memo) करेंसी (Currency)
- Q.37. "डिस्क्रिप्शन" टेक्स्ट बॉक्स का पयोग फ़िल्ड के वर्णन के लिए किया जाता है।
The "Discription" text box is used to describe the field.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.38. "....." यूजर को फ़िल्ड कैप्शन निर्धारित करने या डेटा एंटर करने के लिए संकेत देता है।
"....." specifies a field caption or a prompt for the user to enter data.
 फॉरमेट (Format) इनपुट मास्क (Input Mask) ✓कैप्शन (Caption) फ़िल्ड साइज (Field Size)
- Q.39. फॉर्म तैयार करने के लिए "फॉर्म विजार्ड" चरणबद्ध तरीके से आपका मार्गदर्शन करता है।
"Form Wizard" guides you through the steps required to create a form.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.40. फ़िल्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए फ़िल्ड नाम का उपयोग किया जाता है।
A field name is to identify the data stored in a field.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.41. डिफॉल्ट वैल्यू ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें स्वीकार करने योग्य वैल्यू का वर्णन होता है।
A default value is an expression that defines acceptable values.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.42. प्रत्येक रो ऐसी फ़िल्ड होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से सम्बन्धित सारी सूचनाएं होती है।
Each row is a field which contains all the information about a person, thing or place.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.43. प्राइमरी की को होना चाहिए।
A primery key must be
 यूनिक बट परमिट नल (Unique But Permit Null) ✓यूनिक एंड नोट नल (Unique And Not Null)
 नन-यूनिक एंड नोट नल (Non-unique And Not Null)
 नन-यूनिक एंड परमिट नल (Non-unique And Permit Null)
- Q.44. निम्न में से कौनसी एक डीबीए की प्रक्रिया है?
Which of the following are functions performed by a DBA?
 डेटाबेस डिजाईन (Database Design) सिस्टम सिक्योरिटी (System Security)
 बैकअप एवं रिकवरी (Backup and Recovery) ✓ये सभी All of the above
- Q.45. "....." एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस तैयार करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
"....." is a relation database management application that is used to create and analyze a database.
 वर्ड २००७ (Word 2007) ✓एक्सेस २००७ (Access 2007) सिस्टम
 सिक्योरिटी (System Security) पावर प्वाइंट २००७ (PowerPoint 2007)
- Q.46. विभिन्न प्रकार की सूचना को स्टोर करने की जरूरत के अनुसार आप कई सारे टेबल तैयार कर सकते है।
You can create as many tables as you need to store different types of information.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.47. "....." आपकी टेबल में एक फ़िल्ड या फ़िल्डों का सेट है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक विशिष्ट संकेतक के साथ एक्सेस प्रदान करता है।
A "....." is a field or set of fields in your table that provied Access with a unique identifier for every record.
 पासवर्ड (Password) स्पेशल कोड (Special Code)
 ✓प्राइमरी की (Primary Key) विशिष्ट कोड (Unique Code)

- Q.48.** फोटो को फाइल की तरह इंजर्ट किया जा सकता है।
The photo can be inserted as a file.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.49.** टेबल में आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और टेबल के विभिन्न फील्ड की गणना कर सकते हैं।
You can analyze the data in a table and perform calculations on different fields of data.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.50.** डेटा फॉर्मेटिंग कुछ खास सूचना को तेजी से खोजने में मदद करता है।
Formatting the data often helps in finding some particular information quickly.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.51.** डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या है?
What is the first step of defining a database.
 डेटाबेस को डिजाइन करना (Designing the database) डेटा का संग्रह करना (Collection of data)
 ✓डेटाबेस की योजना बनाना (Planning your database) डेटा को डिजिटलाइज करना (Digitizing your data)
- Q.52.** जब आप प्रिंट प्रिव्यू मोड में टेबल देखते हैं तो "प्रिंट प्रिव्यू" टैब उपस्थित रहता है।
The "Print Preview" tab appears when you view the table in the print preview mode.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.53.** सभी प्रकार के डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, फॉर्म, क्वेरीज और रिपोर्ट के डिजाइन को देखने और तैयार करने के लिए डेटाशीट का उपयोग किया जा सकता है।
Datasheet view can be used to create and view the design of all types of database objects such as tables, forms, queries, and reports.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.54.** डी०बी०एम०एस० का तात्पर्य है। DBMS means
 ✓डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (Database Management System)
 डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम (Domain Management System)
 डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर (Domain Manangeemt Server)
 डोमेन मैनेजमेंट स्टाइल (Domain Management Style)
- Q.55.** एक्सेस यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड में नॉन-ब्लैंक प्राइमरी फ़िल्ड की ओर वह सबसे अलग हो।
Access also ensure that every record has a non-blank primary key field, and that it is always unique.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.56.** "वैलिडेशन रूल" फ़ील्ड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू का वर्णन करता है, जो डेटा एंट्री के दौरान स्वतः तैयार होती है।
"Validation Rule" specifies a default value for a field to be automatically field n at the time of data entry.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.57.** डेटा का टेबल, फॉर्म, क्वेरीज में देखने के लिए डिजाइन व्यू रो और कॉलम प्रदान करता है।
Design view provides a row and column view of the data in tables, forms, and queries.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.58** You can enter up to charactess in a text field.
 375 125 235 ✓255

Internet

- Q.1.** नेटस्केप नेवीगेटर एक प्रकार का है।
Netscape Navigator is a type of
 यूटिलिटी प्रोग्राम (Utility Program) ओपरेटिंग सिस्टम (Operating System)
 ✓ब्राउजर (Browser) वेब ऑथरिंग प्रोग्राम (Web Authoring Program)
- Q.2.** जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे "http://www.mkcl.org", तो यहां .org का तात्पर्य है -
When you type an address such as "http://www.mkcl.org", in this .org indicates.
 ओरिजिनल वेब साइट (Original Web Site)
 कॉमर्शियल वेब साइट (Commercial Web Site)
 ✓ऑर्गेनाइजेशनल वेब साइट (Organizational Web Site)
 एजुकेशनल वेब साइट (Educational Web Site)
- Q.3.** एवं का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं।
You can search the World Wide Web for a specific topic by using and
 गोफर्स, फिडोज (Gophers, Fidoss) स्कैनर्स, सर्च इंजिन (Scanner, Search Engine)

- ✓सर्च इंजिन्स, इन्डेक्सेज (Search Engines, Indexes) ब्राउजर्स, ल्यूकर्स (Browsers, Lurkers)
- Q.4. नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है।
A(n) is a set of rules for how information and messages are sent over the internet.
✓प्रोटोकॉल (Protocol) आई एस पी (ISP) एप्लेट (Applet)
एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML Hyper Text Markup Language)
- Q.5. इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं -
Discussion on the internet about specific topic is known as
न्यूज (News) ✓न्यूज ग्रुप (News group) वेरेनिका (Verinica) टेलनेट (Telnet)
- Q.6. इनमें से कौनसा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है?
Which of the following is not a type of protocol?
ppp TCI/IP ✓ASCII इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.7. इनमें से कौनसा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है?
Which of the following is a type of protocol?
ASCII RAM ✓TCI/IP DBA
- Q.8. ई-मेल संदेश के तीन भाग हैं -
The three parts of an e-mail message are
टीसीपी/आईपी, डोमेन एवं आईएसपी (TCP/IP, Domain and ISP)
डेस्टिनेशन, डिवाइस एवं सेंडर (Destination, Device and Sender)
✓हेडर, संदेश एवं सिग्नेचर (Header, Message and Signature)
टीसीपी, आईपी एवं संदेश (TCP, IP and Message)
- Q.9. पूरे विश्व के कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क है -
The network connecting several computers all over the world is?
इंट्रानेट (Intranet) ✓इंटरनेट (Internet) अर्पानेट (Arpanet) नेटवर्क (Network)
- Q.10. इनमें से कौन एक ब्राउजर है।
Which of the following is a browser.
वेब साइट (Web site) माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft)
✓इंटरनेट एक्सप्लोरर (Internet Explorer) डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. (www.)
- Q.11. डी. एन. एस. का तात्पर्य है।
The terms DNS Stands for.
डेटा नेमिंग सिस्टम (Data Naming System) डू नेम सिस्टम (Do Name System)
✓डोमेन नेम सिस्टम (Domain Name System) डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम (Duplicate Name System)
- Q.12. इंटरनेट ई-मेल ऐड्रेस सभी यूजर्स के लिए होते हैं।
Internet e-mail address is for every user.
✓विशिष्ट (Unique) एक ही (Same) एक समान (Common) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.13. किसी वेब साइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को में जाना आवश्यक होता है।
For navigating any website, user has to enter
✓यू आर एल (URL) डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू (www) पी.पी.पी. (PPP) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.14. ई-कोमर्स का पूरा अर्थ क्या है ?
What is the full form of E-Commerce ?
इंग्लिश कोमर्स (English Commerce) ✓इलेक्ट्रॉनिक कोमर्स (Electronic Commerce)
इलैक्ट्रिक कोमर्स (Electric Commerce) एलिमेंट कोमर्स (Element Commerce)
- Q.15. किसी को मेल भेजने के लिए आपको जरूरत होती है
To send e-mail to someone you need
रेसीडेंट ऐड्रेस (Resident Address) ✓इंटरनेट कनेक्टिविटी (Internet Connectivity)
फैक्स ऐड्रेस (Fax Address) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.16. का उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है।
..... is used to see the web page.
इनबॉक्स (Inbox) रिसाइकिल बिन (Recycle bin)
✓इंटरनेट एक्सप्लोरर (Internet Explorer) नेटवर्क नेबरहुड (Network Neighborhood)
- Q.17. यू आर एल का पूरा नाम क्या है?
Full form of URL
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर (Universal Resource Locator)
✓यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (Uniform Resource Locator)

- यूनि रिसोर्स लोकेटर (Uni Resource Locator) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.18.** मोडम डेटा को सी.डी. से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है।
Modem convert data from a CD to a hard disk.
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.19.** इनमें से कौनसा एक सर्च इंजिन है?
Which of the following is a search engine.
गूगल (Google) अल्टा विस्ता (Alta Vista) याहू (Yahoo) ✓ये सभी (All of these)
- Q.20.** ई कोमर्स का क्या तात्पर्य है?
What is meant by E-Commerce?
✓ऑन लाईन क्रय विक्रय, एकाउन्ट संहालना, आदि (Online selling, purchasing, account handling etc.)
कोमर्स विषय की पढ़ाई (Subject commerce stream)
व्यापारिक समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण
(Electronic equipment to deal with commercial problem)
ये सभी (All of the above)
- Q.21.** .gov, .edu, .mil, ओर .net वगैरह एक्सटेंशंस को कहते हैं।
The extensions .gov, .edu, .mil, and .net are called.
डी.एन.एस. (DNSs) ई-मेल टार्गेट्स (E-mail targets)
✓डोमेन कोड्स (Domain codes) मेल टू एड्रेस (Mail to address)
- Q.22.** वेब स्पाइडर्स ओर क्रॉलर्स के उदाहरण होते हैं।
Web spiders and crawlers are examples of
ब्राउजर्स (Browsers) ✓सर्च इंजिंस (Search Engines)
एचटीएमएल प्रोग्राम्स (HTML Programs) फ्लेम्स (Flames)
- Q.23.** यू आर एल क्या है ?
What is an URL ?
वर्ल्ड वाइड वेब में घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साफ्टवेयर पैकेज
(A software package used to cruise the World Wide Web.)
✓वर्ल्ड वाइड वेब पर रिसोर्स का एक पता (The address of a resource on the World Wide Web)
किसी इंटरनेट विजार्ड को दर्शाने वाला शब्द (The terms used to describe an internal wizard)
लाइव चैट प्रोग्राम (अनलिमिटेड रियल टाइम लैंग्वेज) (A live chat program [Unlimited real time language])
- Q.24.** इंटरनेट में www. का क्या तात्पर्य है ?
What does the abbreviation "www." stands for.
✓वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web) वाइड वाइड वेब (Wide Wide Web)
वर्ल्ड विडथ वेब (World Width Web) वर्ल्ड विड वेब (World With Web)
- Q.25.** कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेब साइट कहलाती है -
Website that allow the user to search for data on keywords is:
चैट इंजिंस (Chat engines) रूटर्स (Routers)
वेब सर्वर (Web Server) ✓सर्च इंजिंस (Search engines)
- Q.26.** इनमें से पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजिन कौनसा है?
Which of the following web search engine is used world wide?
डोमेन (Domain) ✓गूगल (Google) टागल (Toggle) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.27.** किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है। वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है।
When you use a(n) to search for a topic, the information you search through is organized into a database like structure.
✓सर्च इंजिन (Search engine) इंडेक्स (Index) स्पाइडर (Spider) एप्लेट (Applet)
- Q.28.** निम्न में से किस प्रक्रिया के जरिये दो कम्प्यूटरों के बीच इलेक्ट्रॉनिक पत्र या सदेश भेजे जाते हैं ?
Which of the following system electronic letter or message sent between individuals or computers.
✓ई-मेल (E-mail) ऑन लाईन सर्विस (Online Service)
शेयर्स रिसोर्स (Share Resources) वायस मेल मैसेजिंग (Voice mail messaging)
- Q.29.** वर्तमान वेब को अपनी फेवरिट्स की सूची में डालने के लिए -
To add current web to the favourites list.
✓क्लिक "फेवरिट्स - ऐड टू फेवरिट्स" (Click "Favourites - Add to Favourites")
क्लिक "ऐड - फेवरिट्स (Click "Add - Favourites)

- | ✓Category | Mail | Notes | Points |
|--|---|------------------------------------|------------------------|
| Q.10. Sourting tasks is the process of rearranging items in ascending order. | | | |
| | सॉर्टिंग टास्क एक क्रिया है जिसके द्वारा हम कार्यों को अवरोही या आरोही क्रम में जमा करते हैं। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.11. The "Notebook" is an electronic book. which includes detailed information of all the people with whom you communicate. | | | |
| | “नोटबुक” एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, जिसमें उन सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूचना होती है, जिनके साथ आप संचार करते हैं। | | |
| | सही (True) | | ✓गलत (False) |
| Q.12. are seprate external files that are along with you e-mail message. | | | |
| | एक अलग फाइल है जो आपके ई-मेल मैसेज के साथ जाती है। | | |
| | ✓Attachments/ अटैचमेंट | Options/ विकल्प | E-mails/ ई-मेल |
| Q.13. A task is a personal work related action item. | | | Parcels/ पार्सल |
| | एम.एस. आउटलुक २००७ में “टास्क” एक पर्सनल कार्य सम्बन्धी “एक्शन आइटम” है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.14. The "Instant Search" Feature helps you to quickly find items in Microsoft Office Outlook 2007. | | | |
| | माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस २००७ में “इंस्टैंट सर्च” फीचर आपको तेजी से आइटम को खोजने में मदद करती है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.15. In MS Outlook 2007 you can update the status of the tasks at any time and specify and percentage completed. | | | |
| | एम.एस. आउटलुक २००७ में टास्क का स्टेटस पुनः किसी भी समय स्थापित कर सकते हैं और स्टेटस व कार्य का प्रतिशत प्रदर्शित कर सकते हैं। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.16. If you add a recipient's name using "BCC" the name is not Visible to other recipients of the message. | | | |
| | यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम Bcc में जोड़ते हैं तो यह नाम दूसरों प्राप्त करने वालों को दिखाई नहीं पड़ता है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.17. When you start Microsoft Outlook 2007. All the mails that you receive gets deposited in your "Inbox" Folder as default. | | | |
| | जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक २००७ को स्टार्ट करते हैं, तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल, डिफॉल्ट रूप में “इनबॉक्स” फोल्डर में जमा होती है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.18. Once We click on the flag symbol next to an important mail it gets added in the To Do Bar. | | | |
| | जब आप किसी महत्वपूर्ण मेल के बगल में “फ्लेग” के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो वह मेल स्वतः “टू-डू बार” में जुड़ जाता है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.19. You may need to save your contacts to a file, so that are available for use in the future. This is called | | | |
| | कॉन्टेक्ट्स को भविष्य में उपयोग के लिए फाइल में सेव करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे | | |
| | कहते हैं। | | |
| | "Saving"/ सेविंग | "Importing"/ इंपोर्टिंग | |
| | ✓"Exporting"/एक्सपोर्टिंग | "Extracting"/एक्सट्रेक्टिंग | |
| Q.20. A Mailing list is a collection of contacts. | | | |
| | मेलिंग सूची लोगो के कॉन्टेक्ट्स का संग्रह होती है। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.21. To Forward that mail that you have received, click on the mail from the inbox and than click the "Forward" button. | | | |
| | जिस मेल को आप रिसेव करते हैं उसे फॉरवर्ड करने के लिए उस मेल पर क्लिक करके “फॉरवर्ड” बटन पर क्लिक करते हैं। | | |
| | ✓सही (True) | | गलत (False) |
| Q.22. "Notes" are an electronic version of paper notes that you use to got down quick reminders. | | | |

- ✓True** **False**
- Q.23. If you add a recipient's name using "Cc", the name is not visible to other recipients of the message.**
यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम "Cc" में जोड़ते हैं, तो यह नाम दूसरे प्राप्त करने वालों को दिखाई नहीं पड़ता है।
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.24. When you open Microsoft Outlook 2007, you will see a navigation pane on the left. Which contains categories such as mail, calendar and contacts etc.**
जब आप एम.एस. आउटलुक २००७ शुरू करते हैं तो बाईं तरफ एक "नेविगेशन पेन" होता है जिसमें "मेल", "कलेंडर", "कॉन्टैक्ट" इत्यादि विभाजन होते हैं।
✓सही (True) गलत (False)
- Q.25. In the Tasks Timeline view in MS Outlook 2007. The tasks are arranged according to their due dates.**
एम.एस. आउटलुक २००७ में "टास्क" के टाइम लाइन दृश्य में सभी टास्क उनके पूरे होने के समयानुसार प्रदर्शित होते हैं।
✓सही (True) गलत (False)
- Q.26. Sorting "Categories" is the process of rearranging items in ascending or descending order.**
सॉर्टिंग "कैटेगरीज" में किसी आइटम को आरोही या अवरोही क्रम में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया है।
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.27. In MS Outlook 2007 you may add contacts from different books into your mailing list.**
एम.एस. आउटलुक २००७ में आप "कॉन्टैक्ट" को अलग-अलग एड्रेस बुक से मेलिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं।
✓सही (True) गलत (False)
- Q.28. When you want to convey the information that you have received to your friend or any other person you may the mail that you have received.**
जब आप प्राप्त की गई सूचना को अपने दोस्तों या अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं, तो आप उस रिसीव की गई मेल को कर सकते हैं।
"Share"/"शेयर" "Give"/"गिव" "Send"/"सैंड" ✓"Forward"/"फॉरवर्ड"
- Q.29. "Cc" stands for carbon copy and "Bcc" stands for blind carbon copy.**
"Cc" कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है और "Bcc" ब्लाइंड कार्बन कॉपी का संक्षिप्त रूप है।
✓सही (True) गलत (False)
- Q.30. The is an electronic book, which includes detailed information of all the people with whom you communicate.**
..... एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, जिसमें उन सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूचना रहती है। जिनके साथ आपने संचार किया होगा।
✓Addressbook/ एड्रेस बुक Calendar/ कलेंडर Task/ टास्क Notebook/ नोटबुक
- Q.31. You can use a flag to quickly create a follow-up item that can be tracked in the To-Do-Bar, in your Inbox, and even in the calendar.**
शीघ्रतापूर्वक फॉलो-अप आइटम को तैयार करने के लिए फ्लैग का उपयोग कर सकते हैं, जिसे अपने इनबॉक्स में और कलेंडर में टू-टू बार में ट्रैक कर सकते हैं।
✓सही (True) गलत (False)
- Q.32. You can sort your tasks in MS Outlook 2007 according to subject by selecting "View → Arrange By → Subject".**
अपने कार्यों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए हम यह तरीका अपनाते हैं View → Arrange by → Subject.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.33. When you start Microsoft Outlook 2007, all the mails that you receive get deposited in your "Drafts" folder as default.**
जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक २००७ को स्टार्ट करते हैं तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल, डिफॉल्ट रूप से, "ड्राफ्ट" फोल्डर में जमा होती है।
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.34. भेजी जाने वाली मेल बनाने के लिए, नेविगेशन पेन में "मेल" पर क्लिक करते हैं।**
सही गलत

- Q.35. जब आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक २००७ को स्टार्ट करते हैं, तो आपके द्वारा प्राप्त सभी मेल, डिफॉल्ट रूप में "ड्रॉपेट" फोल्डर में जमा होती है।
सही गलत
- Q.36. यदि आप मेल प्राप्त करने वालों का नाम Cc में जोड़ते हैं तो यह नाम दूसरें प्राप्त करने वालों को दिखाई नहीं पड़ता है।
सही गलत

Internet Web and Electronic Commerce

- Q.1. जब एक वेब साइट विकसित किया जाता है, तो विभिन्न इंटर लिंक फाइलों को एक साथ रखा जाता है इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जाता है।
When a web site is developed, the various interlinked files are grouped together. This is achieved using which facility.
हाइपर टेक्स्ट (Hypertext) ✓हाइपर लिंक्स (Hyperlinks)
नेटवर्क (Network) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.2. इंटरनेट में "www" के संक्षिप्त रूप का मतलब है।
What does the abbreviation "www" in internet stands for:
✓वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web) वाइड वाइड वेब (Wide Wide Web)
वर्ल्ड विड्थ वेब (World Width Web) वर्ल्ड विद वेब (World With Web)
- Q.3. तेजी से बढ़ने वाले एक इंटरनेट एप्लिकेशन है।
..... is one of the fastest growing internte application.
ई-मेल (E-mail) ✓शॉपिंग (Shopping) इन्वेस्टिंग (Investing) वाणिज्य (Commerce)
- Q.4. कम्प्यूटर की एक नई भाषा, जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ऐनिमेशन ओर गेम्स खेलते हैं।
..... is the new computer language used to write animation and games for the World Wide Web.
✓जावा (Java) सी (C) सी++ (C++) एचटीएमएल (HTML)
- Q.5. में मेलिंग सूचियां समाचार, समूह ओर चैट समूह सम्मिलित रहते है।
..... include mailing lists news groups and chat groups.
✓चर्चा के समूह (Discussion Groups) इंटरनेट समूह (Internet Groups)
आई.पी. के समूह (IP Groups) इनमें से सभी (All of these)
- Q.6. इनमें से कौनसा सर्च इंजिन है ?
Which of the following is a search engine.
गूगल (Google) अल्टा विस्टा (Alta Vista) याहू (Yahoo) ✓ये सभी (All of these)
- Q.7. डायरेक्ट्री सर्च को इंडेक्स सर्च भी कहा जाता है।
Directory Search is also known as Index Search.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.8. आई. आर. सी. में आर का मतलब है।
In IRC, R stands for:
रियल (Real) ✓रिले (Relay) रिकॉर्ड (Record) रैन्डम (Random)
- Q.9. ऐपलेट्स ऐसे विशेष प्रोग्राम्स है, जिनको भाषा में लिखा गया है।
Applets are the special programs written in language.
✓जावा (Java) एचटीएमएल (HTML) एचटीटीपी (HTTP) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.10. ई-मेल में निम्नलिखित सभी बुनियादी अंश होते हैं के सिवाय
E-mail includes all of the following basic elements except.
हेडर (Header) ✓फुटर (Footer) मेसिज (Message) हस्ताक्षर (Signature)
- Q.11. इंस्टेंट मेसिजिंग आपको करने देता है।
Instant messaging allows you
✓ई मेल मेसिजेज भेजना (Send E-mail messages) डेटा को बांटना (Sharing the data)
आपके मेसिजेज का तुरंत जवाब देती है। (Instant reply of your messages)
वास्तविक जीवन में होने के जैसे बहुत सारो के एक साथ बातचीत करने में संचार करना
(To communicate with many at once in a conversation that occurs in real time)
- Q.12. जब आप एक टोपिक के लिए का प्रयोग करते है, तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस के जैसे ढाँचे में संगठित हो जाती है।
(When you use a(n) to search for a topic the information you search through is organized into a database - like structure.

- ✓सर्च इंजिन (Search Engine) इन्डेक्स (Index) स्पाइडर (Spider) ऐप्लेट (Applet)
- Q.13. .gov, .edu, .mil, और .net के इक्सटेन्शनों को कहा जाता है।
The extensions .gov, .edu, .mil, and .net are called.
 डी.एन.एस. (DNSs) ई मेल की निशानियां (E-mail targets)
 ✓डोमेन के कोडस (Domain codes) पताओं को मेल करना (Mail to addresses)
- Q.14. वेब स्पाइडरों को सर्च इंजिन्स भी कहा जाता है।
(Web spider are also known as search engines.)
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.15. B2c, C2C और B2B के प्रकार है।
B2c, C2C and B2B are types of
 ई मेल (E-mail) ✓ई कोमर्स (E-commerce) ई कैश (E-cash) इनमें से सभी (All of these)
- Q.16. किसी वेब साइट को नेविगेट करने के लिए, यूजर को में प्रवेश करना होता है।
For navigating any website, user has to enter.
 ✓यू आर एल (URL) डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू (www) पी.पी.पी. (PPP) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.17. वेब मकड़ियां और क्रॉलर्स के उदारहण है।
Web spiders and Crawlere are examples of
 ब्राउजर्स (Browsers) ✓सर्च इंजिन्स (Search Engines)
 एच.टी.एम.एल. प्रोग्राम्स (HTML Programs) फलेम्स (Flames)
- Q.18. कॉम प्रकार की व्यवस्था वेब साइट को सूचित करता है।
The .com indicates website of type of organization.
 ✓वाणिज्य (Commerce) जटिल (Complex) कम्पनी (Company) कार्गो (Cargo)
- Q.19. आई एस पी का मतलब है।
ISP stands for.
 इंटरनल सर्विस प्लान (Internal Service Plan) इंटरनेट सर्विस प्लान (Internet Service Plan)
 इंटिग्रल सर्विस प्लान (Intyergal Service Plan) ✓इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (Internet Service Provider)
- Q.20. प्रोग्राम है, जो वेब रिसोर्सेस के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं।
..... are programs that provide access to web resources.
 ✓ब्राउजर्स (Browsers) सर्च इंजिन्स (Search Engines) प्रोग्राम्स (Programs) इनमें से सभी (All of these)
- Q.21. विश्व भर में कौनसा वेब सर्च इंजिन प्रयोग किया जा सकता है ?
Which is a web search engine used World Wide ?
 डोमेन्स (Domains) ✓गूगल (Google) टॉगल (Toggle) इनमें से सभी (All of these)
- Q.22. इंटरनेट पर किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा को कहा जाता है।
Discussion on the internet about specific is known as
 समाचार (News) ✓समाचार समूह (News Group)
 वेरोनिका (Veronica) टेलनेट (Telnet)
- Q.23. यू आर एल का पूर्ण रूप है।
Full from of URL
 ✓यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर (Universal Resource Locator)
 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (Uniform Resource Locator)
 यूनि रिसोर्स लोकेटर (Uni Resource Locator) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.24. ऐसे विशेष प्रोग्राम हैं जिनको जावा में लिखा गया है।
..... are the special programs written in Java.
 जावा प्रोग्राम्स (Java Programs) ✓ऐप्लेट्स (Applets)
 प्रोजेक्ट्स (Projects) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.25. एफ टी पी का मतलब है।
FTP stands for.
 फील्ड ट्रांसफर प्रोजेक्ट (Field Transfer Project) फाइल ट्रांसफर प्रोजेक्ट (File Transfer Project)
 ✓फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (File Transfer Protocol) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.26. ब्राउजर के अंश के रूप में प्लग इन नामक प्रोग्रामों के आटोमेटिक आरम्भ कर, परिचालित किया जाता है
Plug-ins are programs that are automatically started and operate as a part of the browser.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.27. की-वर्ड सर्च को इंडेक्स सर्च भी कहा जाता है।
Keyword search is also known as Index search.

सही (True)

✓गलत (False)

- Q.28. यदि आप "http://www.mkcl.org" जैसे पते को टाइप करते हैं। तो उसमें .org सूचित करता है। कि यह एक
.... है।
When you type an address such as "http://www.mkcl.org," in this. org indicates that it is a
ओरिजिनल वेब साइट (Original Web Site) वाणिज्य सम्बन्धी वेब साइट (Commercial Web Site)
✓व्यवस्था सम्बन्धी वेब साइट (Organizational Web Site) विद्या सम्बन्धी वेब साइट (Educational Web Site)
- Q.29. वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूँढने के लिए ओर का प्रयोग करते हैं।
You can search the World Wide Web for a specific topic by using and
गोपर्स, फिडोस (Gophers, Fidoss) स्कैनर्स, सर्च इंजिन (Scanners, Search engine)
✓सर्च इंजिन्स, इन्डेक्स (Search engine, Index) ब्राउजर्स, ल्यूकर्स (Browsers, Lukers)
- Q.30. सूचित पते को मेसिजेज भिजाते हुए मेम्बरों को संचार करने का एक मौका दिलाते हैं। मेलिंस सूचियां
Mailing lists allow members to communicate by sending messages to a list address.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.31. एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है।
A popular chat service is called -
इंटरनेट रिलीज चैट (Internet Release Chat) इंटरनेट अनुरोध चैट (Internet Request Chat)
इंटरनेट संसाधन चैट (Internet Resource Chat) ✓इंटरनेट रिले चैट (Internet Relay Chat)
- Q.32. ऐप्लेट्स को तैयार करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा को जावा कहा जाता है।
A programming language used for creating applets is called java.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.33. जब आप एक टॉपिक के लिए का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस के जैसे ढाँचे में संगठित हो जाती है।
When you use a(n) to search for a topic, the information you search through is organized into a database - like structure.
✓सर्च इंजिन (Search Engine) इन्डेक्स (Index) स्पाइडर (Spider)ऐप्लेट (Applet)
- Q.34. डोमेन नाम के पीछे डॉट (.) के बाद आने वाले आखरी भाग को कहा जाता है।
The last part of the domain name following the dot (.) is called as
✓डोमेन कोड्स (Domain Codes) ई-मेल टार्गेट्स (E-mail Targets)
डी. एन. एस. (DNSs) पते के लिए मेल (Mail to addresses)
- Q.35. वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है।
Following is a script language used, while designing a web page.
✓एच टी एम एल (हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज) HTML (Hiper Text Markup Language)
एच एल एम एल (हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज) HLML (Hiper Link Markup Language)
एच टी डब्ल्यू एल (हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज) HTWL (Hiper Text Web Language)
इनमें से कुछ नहीं (None of these)
- Q.36. ई-मेल क्या है ?
What is e-mail ?
इंजिनियरिंग मेलिंग (Engineering Mailing) इंटरनेट मेलिंग (Internet Mailing)
✓इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग (Electronic Mailing) उपरोक्त सभी (All of the above)
- Q.37. आई. एम. का मतलब
IM stands for
इंस्टेंट मेकिंग (Instant Making) इंटरनल मेसिजिंग (Internal Messaging)
✓इंस्टेंट मेसिजिंग (Instant Messaging) इनमें से कुछ नहीं (None of these)
- Q.38. माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर व्यापक रूप से प्रयोग करने वाला एक ब्राउजर है।
Microsoft's internet explorel is awidely used browser.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.39. डायरेक्ट्री सर्च को भी कहा जाता है।
Directory search is also known as
डायरेक्ट सर्च (Direct Search) यूनिक सर्च (Unique Search)
✓इन्डेक्स सर्च (Index Search) उपरोक्त सभी (All of these)
- Q.40. यू.आर.एल. क्या है ?
What is URL
सॉफ्टवेयर की एक पैकिज जिसेसे वर्ल्ड वाइड वैब का पर्यटन किया जाता है।

(A software package used to cruise the World Wide Web)

✓वर्ल्ड वाइड वेब का एक संसाधन का पता (The address of resource on the World Wide Web)

इंटरनेट विजर्ड को वर्णन करने का एक शब्द (The term used to describe an internet wizard)

एक लाइव चैट प्रोग्राम (असीमित रियल-टाइम की भाषा)

A live Chat Program (Unlimited Real time language)

Q.41. नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है।

Netscape Navigator is a type of

यूटिलिटी प्रोग्राम (Utility Program)

ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)

✓ब्राउजर (Browser)

वेब आधारित प्रोग्राम (Web Authoring Program)

System Software

Q.1. प्रोग्राम, आपके कम्प्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाते हैं।

..... Programs that guard your computer system against viruses or other damaging programs.

बैक अप (Backup)

✓एन्टी वायरस (Antivirus)

अन-इंस्टॉल (Uninstall)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.2. मल्टीटास्किंग का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लिकेशनों का चलाने की क्षमता।

Multitasking is the ability of the operating system to run more than one application at a time.

✓सही (True)

गलत (False)

Q.3. एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो अनावश्यक फ़ैगमेंटों को ढूँढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सीमित करने के लिए फाइलों और अनुपयुक्त डिस्क-स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है।

..... is a utility program that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges files and unused disk space to optimize operations.

बैक-अप (Backup)

✓डिस्क डी-फ़ैगमेंटर (Disk Defragmenter)

अन इंस्टाल (Uninstall)

इनमें से सभी (All of these)

Q.4. कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किए गए अनावश्यक प्रोग्रामों को मिटाने में अन इंस्टॉल प्रोग्राम्स योगदान देते हैं।

Uninstall programs enable removing unneeded programs installed into the computer's hard disk.

✓सही (True)

गलत (False)

Q.5. बैक-अप प्रोग्राम्स फ़ैलों की प्रतियां बनाते हैं, जिन्हें मूल फ़ैलों के खोजने या खराब हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाये जाते हैं।

Backup programs make copies of the files to be used in case the original files are damaged or lost.

✓सही (True)

गलत (False)

Q.6. का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लिकेशनों को चलाने की क्षमता।

..... is the ability of the operating system to run more than one application at a time.

बूटिंग (Booting)

कोपिंग (Copping)

पेस्टिंग (Pasting)

✓मल्टी-टास्किंग (Multitasking)

Q.7. को डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है।

..... are used to store data and programs.

फोल्डर (Folder)

✓फाइल (File)

री-साइकिल बिन (Recycle bin)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.8. एक समकेंद्री वलय है।

A is a connecting ring.

✓ट्रैक (Track) सैक्टर्स (Sectors) राउंड (Round) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q.9. ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराता है, कम्प्यूटर संसाधनों का नियंत्रण करता है और प्रोग्रामों को चलाता है।
The operating system provides the user interface, controls the computers resources, and runs programs.

✓सही (True)

गलत (False)

Q.10. हर एक ट्रैक, नामक कुछ वेज की आकृति वाले हिस्सों में बाँटा गया है।

Each track is divided into wedge-shaped sections called

ट्रैक (Track)

✓सैक्टर्स (Sectors)

गोल (Round)

इनमें से कुछ नहीं (None of these)

Q.11. को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है।

..... are also known as service programs.

ओ. एस. (OS)

डिवाइस ड्राइवर्स (Device Drivers)

✓यूटिलिटीस (Utilities) उपरोक्त सभी (All of these)

- Q.12. इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है।
Type of software that can be described as "end user" software.
 डॉस (DOS) सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software)
 ✓एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software) ऑपरेशन सॉफ्टवेयर (Operatin Software)
- Q.13. जी. यू. आई. किसका संक्षिप्त रूप है ?
GUI Stands for
 ✓ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस (Graphical User Interface)
 ग्रेटर यूजर इन्टरफेस (Greater User Interface)
 ग्राफिकल यूनियन इन्टरफेस (Graphical Union Interface)
 ग्राफिकल यूजर इन्टरेस्ट (Graphical User Intereat)
- Q.14. नीचे दिये गये ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है ?
Which of these operating system does not have a graphical user interface ?
 विंडोज ९५ (Windows 95) मैक OS (Mac OS) लैनेक्स (Linux) ✓एम.एस. डॉस (MS DOS)
- Q.15. भाषा अनुवादक प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गये प्रोग्रामिंग निर्देशों को किसी भाषा में बदलते हैं, जिसे कम्प्यूटर्स समझकर, उसका संसाधन करते हैं।
Language translators convert the programming instructions, written by programmers into a language that computer understand and process.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.16. कई अलग ट्रब्लशूटिंग यूटिलिटियों का समाहार है।
..... is a collection of several separate troubleshooting utilities.
 बैक अप (Backup) नॉर्टन यूटिलिटियां (Norten Utilities)
 अन इंस्टाल (Uninstall) उपरोक्त सभी (All of the above)
- Q.17. यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कम्प्यूटर संसाधनों का नियंत्रण करता है और प्रोग्रामों को चलाता है।
..... provides the user interface, controls the computers resources, and runs programs.
 ड्राइवर्स (Drivers) ✓ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)
 डेस्कटॉप (Desktop) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.18. यूटिलिटि, हार्ड डिस्क पर अनावश्यक फ़ैलो को पहचान कर, यूजर उन्हें मिटा देता है।
..... utility identifies non essential files on the hard disk and erases them only when user allows their erasure.
 अन इंस्टाल प्रोग्राम (Uninstall Program) बैक अप (Backup)
 फाइल कंप्रेशन (File Compression) ✓डिस्क क्लीन अप (Disk Clean up)
- Q.19. निम्नलिखित में से कौनसा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है।
Which of the following is the function of operating system.
 संसाधनों का संचालन (Managing Resources)
 एप्लिकेशनों को चलाना (Running Applications)
 यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना (Providing User Interface)
 ✓उपरोक्त सभी (All of the Above)
- Q.20. ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो साधारण रूप से प्रयोग किये जाने वाले एप्लिकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
..... are graphical objects used to represent commonly used applicatons.
 जी.यू.आई. (GUI) ड्राइवर्स (Drivers) विंडोज एन.टी. (Windows NT) ✓आइकॉन्स (Icons)
- Q.21. कम्प्यूटर की स्टार्टिंग या री-स्टार्टिंग को सिस्टम की कहा जाता है।
Starting or re-starting a computer is called the system.
 ✓बूटिंग (Booting) कोपिंग (Copping) पेस्टिंग (Pasting) मल्टी-टास्किंग (Multitasking)
- Q.22. विशिष्ट प्रोग्राम है, जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी के कम्प्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं।
..... are specialized programs that allow particular input or output devices to communicate with the rest of the computer system.
 ✓डिवाइस ड्राइवर्स (Device Drivers) यूटिलिटिस (Utilities)
 ओ.एस. (OS) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.23. डिस्क डी फ्रैगमेंटोर एक यूटिलिटि प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रैगमेंटो को ढूँढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशनों को सीमित करने के लिए फाइलों और अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है।
Disk Defrangmeter is a utility program, that locates and eliminates unnecessary fragments and rearranges files and unused disk space to opimize operations.

- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.24.** कमाण्डों का प्रदर्शन करता है, जो सूचना पाने, हार्डवेयर से सेविंगों को बदलने, संचित सूचना को ढूँढकर, ऑन लाइन मदद पाने या कम्प्यूटर को शट डाउन करने का प्रयोग कर सकते हैं।
The displays a list of commands that can be used to gain access to information, change hardware settings, find information stored in the, get online help and shut down the computer.
- जी. यू. आई (GUI) डेस्कटॉप (Desktop) आईकॉन (Icon) ✓स्टार्ट बटन (Start Button)
- Q.25.** निम्नलिखित में से कौनसा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है।
Which of the following example of network operating systems ?
- नेटवेयर (Netware) विंडोस एन. टी. सर्वर (Windows N.T. Server)
विंडोस एक्स. पी. सर्वर (Windows XP Server) ✓उपरोक्त सभी (All of the above)
- Q.26.** यूटिलिटिस को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है।
Utilities are also known as service programs
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.27.** डिस्क पर कम जगह भरने के लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम्स फैलो है, जो उनके परिणामों को घटाते है।
Which programs reduce the size of the files so that they accupy lesser space on the disk.
- बैक अप (Backup) ✓डिस्क क्लीन अप (Disk Cleanup)
फाइल कम्प्रेसन (File Compression) अन इंस्टाल प्रोग्राम (Uninstall Program)
- Q.28.** हर एक ट्रैक, सैक्टरस नामक कुछ वेज की आकृति वाले हिस्सों में बाँटा गया है।
Each track is divided into wedge-shaped called sectors.
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.29.** कम्प्यूटर की स्टार्टिंग या रि-स्टार्टिंग को सिस्टम की मल्टीटास्किंग कहा जाता है।
Starting or Restarting a computer is called multitasking the system.
- सही (True) ✓गलत (False)
- Q.30.**, प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गये प्रोग्रामिंग निर्देशों को किसी भाषा में बदलते हैं, जिसे कम्प्यूटर्स समझकर उनका संसाधन करते है।
..... convert the programing instruction written by programmers into a language that computers understand and process.
- यूटिलिटिस (Utilities) डिवाइस ड्राइवर्स (Device Drivers)
✓भाषा अनुवादक (Language Translators) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.31.** सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल है।
System software includes all of the following except.
- ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System) डिवाइस ड्राइवर्स (Device Drivers)
उपयोगिताएं (Utilities) ✓डेस्कटॉप पब्लिशिंग (Desktop Publishing)
- Q.32.** बैकग्राउंड साफ्टवेयर है जो कि कम्प्यूटर को उसके आंतरिक स्रोतों के उपयोग में सहायता करता है।
..... is background software that helps the computer manage it's own internal resources.
- ✓सिस्टम सॉफ्टवेयर (System Software) सूचना (Information)
उद्देश्य (Objects) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.33.** ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम हैं जो संसाधनों का संचालन करते है यूजर इंटरफेस को उपलब्ध कराते हैं और एप्लिकेशनों को चलाते हैं।
Operating systems are programs that manage resource, provide user interface and run applicatons.
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.34.** कम्प्यूटर की स्टार्टिंग या रि-स्टार्टिंग को बूटिंग कहा जाता है।
Starting or Re-starting a computer is called booting the system.
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.35.** एन्टी वायरस प्रोग्राम कम्प्यूटर को वायरस युक्त प्रोग्रामों के हमले से बचाने के लिए होते है।
Anti virus programs are meant to guard a computer from invasion of the virus programs.
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.36.** कम्प्यूटर के हार्ड डिस्क पर इंस्टाल किये गये अनावश्यक प्रोग्रामों को मिटाने में अनइंस्टाल प्रोग्राम्स योगदान देते हैं।
Uninstall programs enable removing unneeded programs on started into
- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.37.** ड्रब्लशूटिंग प्रोग्राम हार्डवेयर ओर सॉफ्टवेयर दोनों की समस्याओं को पहचान कर जहां तक हो सके उनको सुधारने की कोशिश

करता है।

Trouble shooting programs recognize both hardware and software problems and try to correct them as far as possible.

✓सही (True)

गलत (False)

- Q.38.** डिवाइस ड्राइवर्स विशिष्ट प्रोग्राम है, जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों की बाकी के कम्प्यूटर सिस्टम से संचार करने की अनुमति देते हैं।

Device Drivers are specialized programs that allow particular input or output devices to communicate with the rest computer system.

✓सही (True)

गलत (False)

- Q.39.** एन्टीवायरस प्रोग्राम कम्प्यूटर को वायरस युक्त प्रोग्रामों के हमले से बचाने के लिए होते हैं।

Antivirus programs are meant to guard a computer from invasion of the virus programs.

✓सही (True)

गलत (False)

System Unit

- Q.1.** माइक्रो-प्रोसेसर में दो मौलिक घटक होते हैं।

Microprocessor has two basic components.

कंट्रोल यूनिट (Control Unit)

अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट (Arithmetic Logic Unit)

✓ये सभी (All of these)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

- Q.2.** निम्नलिखित में से कौनसा डेटा संसाधन इकाई है ?

Which of the following is a data processing unit

✓सीपीयू (CPU)

रैम (RAM)

हार्ड डिस्क (Hard Disk)

फ्लॉपी (Floppy)

- Q.3.** फायर-वायर के पोर्ट को हार्ड परफॉर्मन्स सीरियल बस (एच.पी.एस.बी.) पोर्ट भी कहा जाता है।

Fire-Wire port is also called as High Performance Serial Bus (HPSB) port.

✓सही (True)

गलत (False)

- Q.4.** कैश मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है।

Cash memory is used to store most frequently accessed information from the RAM.

✓सही (True)

गलत (False)

- Q.5.** आर.आई.एस.सी. का मतलब है।

RISC stands for.

✓रेड्यूसड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर (Reduced Instruction Set Computer)

रीड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर (Read Instruction Set Computer)

रेड्यूसड इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर (Reduce Instruction Software Computer)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

- Q.6.** सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों के सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है।

The connects all system computers and allows input and output device to communicate with the system unit.

✓सिस्टम बोर्ड (System Board)

मॉनीटर (Monitor)

माउस (Mouse)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

- Q.7.** माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं -

The types of microprocessor chips are

सी.आई.एस.सी. चिप्स (CISC Chips)

आर.आई.एस.सी. चिप्स (RISC Chips)

✓ये सभी (All of these)

इनमें से कोई नहीं (None of these)

- Q.8.** सीरियल पोर्ट से डेटा का ट्रांसफर, समानान्तर पोर्ट से भी तेजी से होता है।

Data transfer through a serial port is faster than that of a parallel port.

सही (True)

✓गलत (False)

- Q.9.** निम्न में से कौनसी प्राइमरी मेमोरी है ?

Which of following is a primary memory ?

✓रैम (RAM)

सीडी (CD)

फ्लॉपी (Floppy)

हार्ड डिस्क (Hard Disk)

- Q.10.** रैन्डम एक्सेस मेमोरी (रैम), प्रकार की होती है।

Random Access Memory (RAM) is type of memory.

स्थायी (Permanent)

✓अस्थायी (Temporary)

फ्लैश (Flash)

स्मार्ट (Smart)

- Q.11.** ASCII, EBCDIC और यूनिकोड, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।

ASCII, EBCDIC and Unicode are examples of Application Software.

- सही (True) ✓गलत (False)
- Q.12. आठ बिट्स मिलकर एक बाइट होता है।
Eight bits makes up a bite.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.13. माइक्रो कम्प्यूटर में केन्द्रीय संसाधन इकाई (सी.पी.यू.) या संसाधक, माइक्रो-प्रोसेसर नामक सिंगल चिप पर शामिल होते हैं।
In a microprocessor system, the Central Processing Unit (C.P.U.) or a processor is contained on a single chip called the microprocessor.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.14. सी. आई. एस. सी. का मतलब है।
CISC stands for.
कम्प्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर (Computer Instruction Set Computer)
✓कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर (Complex Instruction Set Computer)
कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कम्प्यूटर (Complex Index Set Computer)
इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.15. ASCII, EBCDIC ओर यूनिकोड-बाइनरी कोडिंग स्कीम हैं।
ASCII, EBCDIC and Unicode are binary coding schemes.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.16. नोट बुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर कहा जाता है।
Note book system units are often called as
पी.डी.ए. (PDA) ✓लैपटॉप (Laptop) डेस्कटॉप (Desktop) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.17. को सिस्टम केबिनेट या चैसिस भी कहा जाता है।
..... is also known as the system cabinet or chassis.
✓सिस्टम यूनिट (System Unit) मॉनीटर (Monitor)
की बोर्ड (Key board) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.18. फ्लैश रैम में संग्रह की गई डेटा, कम्प्यूटर के लिए पावर स्विच ऑफ करने पर भी मिट नहीं जाती है।
Data stored in Flash RAM does not get erased even when power to the computer is switched off.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.19. सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है।
The system board is also known as the main board or mother board.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.20. स्टोरेज उपकरण की क्षमता को साधारण रूप से बाइटों में नापा जाता है।
Capacity of a storage device is usually measured in terms of bytes.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.21. निम्नलिखित में से कौन से घटक को डेटा संग्रह में प्रयोग किया जाता है।
Which of the following component is used to store data?
सीपीयू (CPU) ✓मेमोरी (Memory) इनपुट उपकरण (Input Device) आउटपुट डिवाइस (Output Device)
- Q.22. माइक्रोप्रोसेसर को अक्सर सीपीयू कहा जाता है।
Microprocessor is often called a CPU.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.23. माइक्रोप्रोसेसर के सिस्टम में केन्द्रीय संसाधन इकाई (सी.पी.यू.) या संसाधक, नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं।
In a microprocessor system, the control processing unit (C.P.U.) or processor is contained on a single chip called the
स्लॉट (Slot) पोर्ट (Port) ✓माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.24. एक १६ बिट वाला कोड है, जिसे चीनी या जापानी जैसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं की पुष्टि के लिए तैयार किया गया है।
..... is a 16-bit code designed to support international language like Chinese and Japanese.
✓यूनिकोड (Unicode) ASCII EBCDIC इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.25. काफी पोर्टेबल तरह के उपकरण है, जो कमेंटों या डेटा को इनपुट करने के लिए स्टाइलस या कलम के प्रयोग का समर्थन करते हैं।
पी.डी.ए. (PDA) लैपटॉप (Laptop) डेस्कटॉप (Desktop) ✓टैब्लेट पी.सी. (Tablet P.C.s)
- Q.26. निम्नलिखित में से कौनसा कम्प्यूटर के मेमोरी की इकाई है ?
Which of the following is the unit of computer memory.

- किलोग्राम (Kilogram) ✓किलोबाइटस (Kilobytes) मीटर (Meter) सेल्सियस (Celsius)
- Q.27. प्रिन्टर्स को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने में अधिकतर समानान्तर पोर्टों का प्रयोग किया जाता है।
Parallel ports are mostly used to connect printers to the system unit.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.28. इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में डेटा और निर्देशों को बाइनरी या टू-स्टेट नंबरिंग सिस्टम के रूप में वर्णित किया गया है।
Data and instructions are represented electronically with a binary, or two-state numbering system.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.29. निम्नलिखित में से कौनसी मेमोरी की अधिकतम इकाई है ?
Which of the following is the highest unit of memory ?
✓गीगाबाइट (Gigabyte) बाइट (bytes) मेगाबाइट (Megabytes) किलोबाइट (Kilobytes)
- Q.30. सिस्टम बोर्ड, सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट तथा आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है।
The system board connects all system components and allow input and output device to communicate with the system unit.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.31. समानान्तर पोर्ट में डेटा को एक बाइट से दूसरे बाइट में प्रसारित किया जाता है।
In parallel port data is transmitted one byte after another.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.32. निम्न में से कौनसी प्राइमरी मेमोरी है ?
Which of the following is a primary memory ?
✓रैम (RAM) सी.डी. (CD) फ्लॉपी (Floppy) हार्डडिस्क (Hard Disk)
- Q.33. सॉकेट्स स्लॉट्स और बस लाइन्स, सिस्टम बोर्ड के घटक हैं।
Sockets, slots and bus lines are components of the system board.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.34. बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में हर एक 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है।
Each 0 and 1 in the binary numbering system is called a bit.
✓सही (True) गलत (False)

Input and Output

- Q.1. मॉनीटर स्क्रीन के बिंब के आउटपुट को अक्सर हार्डकापी कहा जाता है।
Output of an image on the monitor screen is often called hard copy.
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.2. बैंक में चेक से डेटा को पढ़ने में एम. आई. सी. आर. का प्रयोग किया जा सकता है।
MIRC can be used to read data from checks in a bank.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.3. 800 x 600 रिजोल्यूशन वाले मॉनीटर हारिजॉन्टल 800 पिक्सेल और वर्टिकल 600 पिक्सेल होते हैं।
A monitor with resolution of 800 x 600 has 800 pixels horizontally and 600 pixels vertically.
✓सही (True) गलत (False)
- Q.4. की बोर्ड पर 0-9 तक निर्दिष्ट कुंजियों को कहा जाता है।
The keys labeled 0 -9 on the keyboard are called.
फंक्शन कीज (Function Keys) टाइपराइटर्स कीज (Typewriters Keys)
✓न्यूमेरिक कीज (Numeric Keys) विशेष प्रयोजन कीज (Special purpose Keys)
- Q.5. माउस और ट्रैक - बॉल के कार्य अलग - अलग हैं।
The functions of a mouse and a track ball are different.
सही (True) ✓गलत (False)
- Q.6. उपकरण, जनता के समझने के जैसे कम्प्यूटर्स द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते हैं।
..... devices translate what people understand into a form that computers can process.
इनपुट (Input) आउटपुट (Output) ✓ये सभी (All of these) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.7. की बोर्ड में F1, F2, आदि नाम की कुंजियों को कहा जाता है।
The keyboards keys that are labeled F1, F2 and so on are called
✓फंक्शन कीज (Function Keys) न्यूमेरिक कीज (Numeric Keys)
टाइप राइटर्स कीज (Typewriter Keys) विशेष प्रयोजन कीज (Special Purpose Key)
- Q.8. निम्नलिखित में से कौनसा उपकरण पोइंट करने वाला उपकरण नहीं है ?

- Which of the following device is not from pointing type of device ?**
 माउस (Mouse) टच स्क्रीन (Touch screen) ✓की बोर्ड (Key board) जाय स्टीक (Joystick)
- Q.9.** निम्नलिखित में से कौनसा उपकरण इनपुट उपकरण नहीं है ?
Which of these is not a input device ?
 ✓मॉनीटर (Monitor) माउस (Mouse) की बोर्ड (Key board) जाय स्टीक (Joystick)
- Q.10.** मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने में ओ. सी. आर. का प्रयोग किया जा सकता है ।
OCR is used to translate printed text to machine readable code.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.11.** ऑप्टिकल करेक्टर को पहचानने का उपकरण ओर ऑप्टिकल मार्क को पहचानने का उपकरण दोनों एक ही उपकरण के दो नाम है ।
Optical character recognition device and optical mark recognition device are two names of the same device.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.12.** हॉरिजन्टल पिक्सेल की संख्या ओर वर्टिकल पिक्सेल की संख्या का अनुपात, मॉनीटर का ऐस्पेक्ट रेशियो है ।
Aspect ratio of a monitor is the ratio of number of horizontal pixels to number of vertical pixels.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.13.** मॉनीटर स्क्रीन के बिंब के आउटपुट को अक्सर हार्डकॉपी कहा जाता है ।
Output of an image on the monitor screen is often called a hardcopy.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.14.** किसी फिचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे की बोर्ड की कुंजियों को कहा जाता है ।
The keyboard keys like caps lock that turn a feature on or off are called.
 फंक्शन कीज (Function Keys) कॉम्बिनेशन कीज (Combination Keys)
 ✓टॉगल कीज (Toggle Keys) विशेष प्रयोजन कीज (Special Purpose Keys)
- Q.15.** यूजर को सूचना प्रदर्शित करना ही मॉनीटर का मूलभूत कार्य है ।
Primary function of a monitor is to display information to the user.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.16.** हेडफोन, आउटपुट उपकरण का प्रतिनिधिक रूप है ।
Headphone is a typical output device.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.17.** डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को भी कहा जाता है ।
The mouse pointer seen on the desktop is also called as
 ✓ऐरो पॉइंटर (Arrow Pointer) की पॉइंटर (Key Pointer)
 डिस्प्ले पॉइंटर (Display Pointer) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.18.** विशेष प्रयोजन वाले ग्राफिक्स को तैयार करने में प्लॉटर्स का प्रयोग किया जा सकता है ।
Plotters are used to produce special purpose graphics.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.19.** इनपुट उपकरण, जनता के समझने के जैसे कम्प्यूटरों द्वारा संसाधन करने लायक रूपों में परिवर्तन करते है ।
Input device translate what people understand into a form that computers can process.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.20.** पियानो के जैसे संगीत को बजाना ही कम्प्यूटर में कॉमन की बोर्ड का मूलभूत कार्य है ।
Primary function of a common keyboard in a computer is to play music like a piano.
 सही (True) ✓गलत (False)
- Q.21.** विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने में का प्रयोग होता है ।
The eassiest way to access any part of the screen in the windows operating system is using the
 की बोर्ड (Key board) चूहा (Rat) ✓माउस (Mouse) जॉयस्टीक (Joystick)
- Q.22.** डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चिड़चिड़ाने वाले आवाज उत्पन्न करते है ।
Dot matrix printers make irritating noise.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.23.** तेजी से खेलने वाले गेम्स के लिए जॉय स्टीक काफी लाभदायक है ।
Joystick is very useful in playing speed games.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.24.** कागज पर आउटपुट पाने के लिए प्रिंटरों को कम्प्यूटर के साथ जोड सकते है ।
Printers can be connected to a computer for producing output on a paper.

- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.25. शार्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है।
Instead of function keys which are use to create a shortcut.
 टांगल कीज (Toggle Keys) स्पेशल कीज (Special Keys)
 ✓कॉम्बिनेशन कीज (Combination Keys) न्यूमेरिक कीज (Numeric Keys)
- Q.26. फ्लैट बैड स्कैनर के काम करने की पद्धति काफी हद तक फोटो कॉपिंग मशीन के जैसे ही है।
Method of working of a flatbed scanner is mostly similar to a photocopying machine.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.27. मॉनीटर स्क्रीन के बिंब के आउटपुट को अक्सर सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है।
Output of an image on the monitor screen is often called soft copy.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.28. कौन सा प्रिंटर, कागज के ऊपर स्याही से छोटे-छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है।
Which printer print data or image by spraying small dropts of ink at high speed into the surface of the paper ?
 ✓इंक जेट प्रिंटर (Ink Jet Printer) लेजर प्रिंटर (Laser Printer)
 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर (Dot Matrix Printer) ड्रम प्रिंटर (Drum Printer)
- Q.29. निम्नलिखित में से कौनसी कुंजी टांगल की नहीं है ?
Which of the following key is not a toggle key ?
 कैप्स लॉक (Caps Lock) नम लॉक (Num Lock) स्क्रोल लॉक (Scroll Lock) ✓कंट्रोल (Control)
- Q.30. की बोर्ड के कुंजियों में ऐरो वाले कुंजियों को कहा जाता है।
The keyboard keys that have arrows on them are called.
 फंक्शन कीज (Function Keys) नेविगेशन कीज (Navigation Keys)
 टाइपराईटर्स कीज (Typewriters Keys) विशेष प्रयोजन कीज (Special Purpose Keys)
- Q.31. एक लाइट संसिटिव कलम के जैसा उपकरण है।
A is a light sensitive pen like device.
 ✓लाइट पेन (Light Pen) जॉय स्टीक (Joy Stick)
 टच स्क्रीन (Touch Screen) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.32. प्रिंटर में आउटपुट होने वाले बिंब को अक्सर हार्ड कॉपी कहा जाता है।
Output of an image through a printer is often called hard copy.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.33. निम्नलिखित उपकरणों में से कौनसा उपकरण तेजी से कम्प्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है
Which of the following device is used to play fast computer games?
 ✓जॉयस्टीक (Joystick) टच सर्फेश (Touch Surface)
 टच स्क्रीन (Touch Screen) ट्रैक बॉल (Track Ball)

Secondary Storage

- Q.1. डिस्क पर स्थित बहुत सारे गोलाकार क्षेत्रों में से एक है, जहां डेटा को मैग्नेटिकल तौर पर लिखा जाता है।
A track on a disk is the one of the many circular ring shaped areas where data is written magnetically.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.2. निम्नलिखित में से कौनसा फाइल कम्प्रेसन प्रोग्राम नहीं है ?
Which of these is not a file compressin program ?
 विन झिप (Win Zip) पी.के. जिप् (PK Zip) विन आर.ए.आर. (Win RAR) ✓आर.ए.आई.डी.(RAID)
- Q.3. पारंपरिक फ्लॉपी डिस्क, १.४४ एमबी ३.५ इंच का डिस्क होता है।
The traditional floppy disk is the 1.44 MB 3.5 inch disk.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.4. २०० एमबी या ७२० एमबी की क्षमता वाले डिस्कों का उत्पादन सोनी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है
..... disk from the Sony Corporation have a capacity of 200 MB or 720 MB.
 सुपर डिस्क (Super Disk) ✓हाई एफ डी डिस्क (HiFD Disk)
 जिप् डिस्क (Zip Disk) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.5. उच्च क्षमता वाले डिस्कों को भी फ्लॉपी डिस्क कार्ट्रिजिस के नाम से जाना जाता है जो पारंपरिक फ्लॉपी डिस्क की जगह ले रहा है।
High capacity disks also known as floppy disk cartridoges are rapidly replacing the traditional floppy disk.

- ✓सही (True) गलत (False)
- Q.6. डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है।
..... improves hard-disk performance by anticipating data needs.
 ✓डिस्क कैचिंग (Disk Catching) डिस्क डिफ्रैगमेंट (Disk Defragment)
 डिस्क राईटिंग (Disk Writing) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.7. ३.५ फ्लॉपी डिस्क की क्षमता
3.5 floppy disk capacity is
 ✓१.४४ एम बी (1.44 MB) १ एमबी (1 MB)
 १.६६ एमबी (1.66 MB) १.५५ एमबी (1.55 MB)
- Q.8. १२० एमबी या २४० एमबी क्षमता वाले सुपर डिस्कों का उत्पादन इमेशन द्वारा किया जाता है।
Super disks are produced by Imation and have a 120 MB or 240 MB capacity.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.9. सी.डी. रोम का मतलब है।
A CD-ROM stands for.
 ✓कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओन्ली मेमोरी (Compact Disk Read Only Memory)
 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वन्स मेमोरी (Compact Disk Read Once Memory)
 सी. डी. आर. डब्ल्यू (CD-RW) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.10. प्रोग्राम, आपके कम्प्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानिकारक प्रोग्रामों से बचाते हैं।
..... Programs that guard your computer system against viruses or other damaging programs.
 बैक अप (Backup) ✓एन्टी वायरस (Anti Virus)
 अन इंस्टाल (Uninstall) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.11. गोलाकार हिस्से का नाम क्या है, जिस पर संग्रहण माध्यम पर डेटा को लिखा जाता है ?
What is the name given to a part of circle on which data is written in a storage media ?
 ट्रैक (Track) ✓सेक्टर (Sector) सिलिंडर (Cylinder) स्पाइरल (Spiral)
- Q.12. सी.डी.आर.डब्ल्यू. डिस्क का मतलब है।
A CD-RW Disk means.
 ✓सी.डी.री.राइटेबल (CD-Rewriteable) सी.डी.रिकॉर्डेबल (CD-Recordable)
 सी.डी. रॉम (CD-ROM) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.13. का उत्पादन लोमेगा द्वारा किया जाता है व उसकी क्षमता १०० एमबी व २५० एमबी या ७५० एमबी है जो कि आज की मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में ५०० गुना है।
..... are produced by lomega and topically have a 100 MB, 250 MB or 750 MB capacity over 500 times as much as today's standard floppy disk.
 सुपर डिस्क (Super Disk) हार्डि एफडी डिस्क (HiFD Disk)
 ✓जिप डिस्क (Zip Disk) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.14. मूलभूत संग्रहण व्होलेटाईल है।
Primary storage is a volatile. ✓सही (True) गलत (False)
- Q.15. २०० एमबी या ७२० एमबी की क्षमता वाले हार्डि एफ डी डिस्को का उत्पादन सोनी कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है।
HiFD Disks from the Sony Corporation have a capacity of 200 MB or 720 MB.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.16. १२० एमबी या २४० एमबी क्षमता वाले सुपर डिस्को का उत्पादन इमेशन द्वारा किया जाता है।
..... are produced by Imation and have a 120 MB or 240 MB capacity.
 ✓सुपर डिस्क (Super Disk) हार्डि एफडी डिस्क (HiFD Disk)
 जिप डिस्क (Zip Disk) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.17. एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है।
..... are removable storage devices used to store massive amounts of information.
 ✓हार्डि डिस्क पैक (Hard Disk Packs) सी.डी. (C.D.)
 फ्लॉपी डिस्क (Floppy Disk) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.18. हर एक ट्रैक, सेक्टर नामक कुछ वेज की आकृति में बाँटा गया है।
Each track is divided into wedge-shaped sections called sectors.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.19. संग्रहण उपकरण ऐसे हार्डवेयर है, जो डेटा ओर प्रोग्रामों को संग्रहण माध्यम से पढ़ता है।
Storage device are hardware that reads data and programs from stroage media.

- सही (True) गलत (False)
- Q.20.** डिस्क के लेबल पर २ एचडी का मतलब।
The 2 HD on a disk label means.
 दो तरफ, कम घनत्व (Two side, Low Density) ✓दो तरफ, अधिक घनत्व (Two Side High Density)
 एक तरफ, अधिक घनत्व (One Side High Density) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.21.** डिस्को में १२० एमबी की संग्रहण क्षमता होती है और एक मानक ३.५" के फ्लॉपी डिस्क पर ड्राइव्स डेटा को रीड कर, उसे स्टोर कर सकते हैं।
 disks have a 120 MB storage capacity and the drivers are also able to read and store data on a standard 3.5" floppy disk.
 ✓सुपर डिस्क (Super Disks) हाई एफ डी डिस्क (HiFD Disks)
 जिप डिस्क (Zip Disks) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.22.** जिप डिस्क का उत्पादन लोमेगा द्वारा किया जाता है व उसकी क्षमता १०० एमबी, २५० एमबी या ७५० एमबी है जो आज के मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में ५०० गुना है।
Zip disks are produced by lomega and typically have a 100 MB, 250 MB or 750 MB capacity over 500 times such as much as today's standard floppy disks.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.23.** सी. डी. आर. का मतलब है।
A CD-R stands for.
 ✓सी.डी. रिकॉर्डेबल (CD-Recordable) सी.डी. रनर (CD-Runner)
 सी.डी. रिसीवर (CD-Receiver) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.24.** हर एक ट्रैक नामक कुछ वेज की आकृति वाले हिस्सों में बाँटा गया है।
Each track is divided into wadge-shaped sections called.
 ट्रैक (Track) ✓सेक्टर्स (Sectors) गोल (Round) इनमें से कोई नहीं (None of these)
- Q.25.** हार्ड डिस्क पैक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जाती है।
Hard disk packs are removable storage devices used to massive amounts of information.
 ✓सही (True) गलत (False)
- Q.26.** द्वितीयक संग्रहण नॉन-व्होलेटाईल है।
Secondary Storage is nonvolatile. ✓सही (True) गलत (False)
- Q.27.** फ्लॉपी डिस्क बदले जाने वाले स्टोरेज मीडिया होते हैं।
Floppy disks are removable storage media.
 ✓सही (True) गलत (False)